(स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्भीक राष्ट्रीय हिन्दी समाचार पत्र)

हिन्दी दैनिक

बुद्ध का संदेश

लखनऊ,कानपुर,कन्नौज,बरेली,सीतापुर,सोनभद्र,गोण्डा,बाराबंकी,बलरामपुर,श्रावस्ती,बहराइच,अम्बेडकरनगर,फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर,गोरखपुर,कुशीनगर,देवरिया,महराजगंज,सिद्धार्थनगर में एक साथ प्रसारित।

बुधवार, 11 अगस्त 2021 सिद्धार्थनगर संस्करण | www.budhakasandesh.com | वर्षः 08 अंकः 236 पृष्ठ 8 आमंत्रण मूल्य 2/–रूपया

लखनऊ सुचीबद्ध कोड– SDR-DLY-6849, डी.ए.वी.पी.कोड–133569 | सम्पादक : राजेश शर्मा | उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

प्रोजेक्ट की विफलता के लिए...8

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं है कोई व्यवस्था, प्रदेश का हर वर्ग परेशान हैः कमलनाथ

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वहां कोई व्यवस्था नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान पीड़ित है, मूल्य, खाद और बीज नहीं मिल रहा है। मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके आया, कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने घोषणा की कि जिनकी कोरोना से मौत हुई है उन्हें मुआवजा देंगे। एक व्यक्ति को भी नहीं मिला। इसके अलावा कमलनाथ ने कहा कि विधानसभा शुरू हुई, महंगाई पर प्रश्न उठा, हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था।सर्वदलीय बैठक में चर्चा हुई थी कि स्थगन प्रस्ताव में से एक तो स्वीकार कर लीजिए। हमने 139 में कई प्रस्ताव रखे थे उसमें से बता दीजिए कि 3–4 स्वीकार करेंगे।कुछ बताने को तैयार नहीं हैं। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे आदिवासी, अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। आज उन्होंने पाखंड किया। इन्होंने पिछड़े वर्ग को धोखा दिया और उनके साथ पाखंड किया। पिछड़ा वर्ग की पीठ में छूरा घोंपने की घटिया राजनीति की।

जम्मू–कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों का ग्रेनेड हमला, 5 लोग जख्मी

श्रीनगर। जम्मू–कश्मीर के श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोपहर 2 बजकर 40 मिनट में एक संदिग्ध व्यक्ति ने एसएसबी के बंकर को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जम्मू–कश्मीर के श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर आतंकवादियों सुरक्षाकर्मियों पर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में पांच नागरिक घायल हुए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्रेनेड हमले में जख्मी हुए स्थानीय नागरिकों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही ग्रेनेड हमला करने वालों की तलाश में इलाके में घेराबंदी की गई है। गौरतलब है कि शोपियां जिले में मंगलवार तड़के सीआरपीएफ के सड़क सुरक्षा दल पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि क्रालचेक पर आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के सड़क सुरक्षा दल पर हमला किया।

गौतम गंभीर को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है भाजपा? ऐसे मिल रहे संकेत

दिल्ली में अगले साल नगर निगम के चुनाव होने है। माना जा रहा है कि नगर निगम चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच होगी। इन सबके बीच सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा बड़ा बदलाव कर सकती है। दरअसल, हाल में ही पूर्वी दिल्ली से सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष के साथ भी मुलाकात की थी। इन मुलाकातों के बाद गौतम गंभीर को लेकर तरह–तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि निगम चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव कर सकती है। दिल्ली में वर्तमान में आदेश गुप्ता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। उनसे पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मनोज तिवारी के पास थी। माना जा रहा है कि गौतम गंभीर लगातार केजरीवाल सरकार पर आक्रामक तेवर अपनाए रहते हैं। केजरीवाल सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना करते हैं। ऐसे में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

जाट समाज को आरक्षण देगी मोदी सरकार?

किसान आंदोलन को कमजोर करने की तैयारी

लखनऊ। केन्द्र की मोदी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग संविधान संशोधन विधेयक के जरिये जाट समुदाय के वोटरों को मजबूती के साथ भाजपा से जोड़ने की जुगत में लगा है।ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के बाद मोदी सरकार अगले कदम के रूप में केंद्र में जाट समाज को आरक्षण देकर किसान आंदोलन को भी कमजोर करने का इरादा रखती है। केंद्र सरकार की नजरें किसान आंदोलन पर शुरू से टेड़ी है।उसे लगता है कि नया कृषि कानून जो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हैं लागू भी नहीं हुआ है उस पर बवाल करना किसान नेताओं की सोची समझी साजिश है और इसके लिए उसे कांग्रेस जैसे दलों का भरपूर सहयोग मिल रहा है।

गौरतलब हो नये कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में बढ़–चढ़ कर अपनी भूमिका निभा रही जाट बिरादरी को साधने के लिए भाजपा की योजना हरियाणा में जाटों को ओबीसी सूची में शामिल करने की भी है। यूपी विधानसभा चुनाव से पूर्व इस बिरादरी को साधने के लिए मोदी सरकार इन्हें केंद्रीय सूची में भी शामिल कर सकती है।गौरतलब है कि जाट बिरादरी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कई हिस्सों में ओबीसी सूची में शामिल हैं। हरियाणा में इस बिरादरी को आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।इसके अलावा लंबे समय से चली आ रही मांग के बावजूद जाट बिरादरी को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी की सूची में अब तक जगह नहीं मिली है। इस संशोधन विधेयक के जरिये इसका रास्ता तैयार किया जा रहा है। ओबीसी विधेयक में संशोधन करके बीजेपी यूपी चुनाव में जाट : बिरादरी पर बड़ा दांव लगा सकती है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कि लगभग 100 सीटों पर जाट वोटरों का दबदबा है। बीते करीब आठ महीने से चल रहे किसान आंदोलन में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बिरादरी मुखर भूमिका निभा रही है। पिछले चुनावों में इस बिरादरी ने भाजपा का साथ दिया था।इसी कारण पश्चिम यूपी में धमक रखने वाली आरएलडी के प्रमुख नेता चौधरी अजित सिंह और उनके पुत्र जयंत चौधरी लोकसभा का चुनाव हार गए थे। अबकी बार कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में इस बिरादरी की मुखर भूमिका से भाजपा काफी सहमी हुई है क्योंकि यूपी में सपा ,कांग्रेस ,बसपा सब की सब किसान आंदोलन से पक्ष में मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं।जाट समुदाय को आरक्षण देकर बीजेपी विपक्ष के दांव की काट करना चाहती है।

जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने से पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिएः गुलाम नबी आजाद

श्रीनगर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए भूमि और रोजगार के अधिकारों की वकालत की। कश्मीर के गांदरबल जिले के तुल्लामुल्ला क्षेत्र में खीर भवानी मंदिर परिसर के बाहर आजाद ने संवाददाताओं से कहा 1990 की शुरुआत में आतंकवाद के कारण घाटी से बाहर गए कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "चुनाव जल्दी कराना चाहिए। लेकिन चुनाव से पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए जो बेहद जरूरी है। कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाना चाहिए।" आजाद ने कहा, "अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद हमारी भूमि और रोजगार (अधिकार) जो छीन लिए गए थे, उन्हें वापस दिया जाना चाहिए, उसी तरह जैसे वो पहले (पांच अगस्त 2019) थे। इसके लिए राज्य का दर्जा बहाल करने के बाद नया कानून लाया जाना चाहिए।" आजाद के मंदिर जाने से कुछ देर पहले सुबह राहुल गांधी वहां गए थे। आजाद जब तुल्लामुल्ला पहुंचे तब गांधी हजरतबल के लिए निकल चुके थे।

पीएम मोदी ने की उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आज उज्ज्वला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है। मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत–बहुत बधाई देता हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं बुंदेलखंड की एक और महान संतान को याद कर रहा हूं। मेजर ध्यान चंद, हमारे दद्दा ध्यानचंद। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन की बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार हमने देखा है कि ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने मेडल तो जीते ही, अनेक खेलों में दमदार प्रदर्शन करके भविष्य का संकेत भी दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते साढ़े सात दशकों की प्रगति को हम देखते है तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। उन्होंने कहा कि घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं है जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार देशवासियों को करना पड़ा, ये दुरूखद है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्रनिर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएंगी, जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होंगी। इसलिए बीते 6–7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बहनों के स्वास्थ्य, सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण के शुभारंभ के लिए उत्तर प्रदेश को चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के डेढ़ करोड़ परिवारों को पहले चरण में इसका लाभ मिला। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से कोरोना कालखंड में भी 6 महीने तक मुफ्त में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की आज शुरुआत हो रही है, वो सचमुच में नारी की गरिमा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के साथ आपके द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है।

ममता ने की कई घोषणाएं,बोलीं– 100 दिनों के भीतर मिलेगा जाति प्रमाण पत्र

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को झारग्राम में ऐलान किया कि आदिवासी लोगों को 100 दिनों के भीतर ही जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ममता बनर्जी ने झारग्राम विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जीतने के बाद सोमवार को कई घोषणाएं कीं। जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, दुआरे सरकार समेत कई घोषणाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भाजपा ने जंगल महल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था। अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस के मौके पर जिले के जंगलमहल इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि हमने अपने राज्य के आदिवासी समुदायों के विकास के लिए सभी कदम उठाए हैं। झारग्राम में लगभग 95 प्रतिशत आदिवासी आबादी को राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि हमने 100 दिनों के भीतर जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया है। झारग्राम में 95 फीसदी से ज्यादा लोगों को सरकार की ओर से सेवाएं मिल चुकी हैं। हमने सुपरस्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि झारग्राम में साधुराम चंद विश्वविद्यालय विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा हमने पहले ही 500 स्कूलों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमारी सरकार ने अलचिकी को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। इस दौरान उन्होंने झारग्राम के लोगों को आर्शीवाद देने के लिए धन्यवाद कहा।

चार अगस्त तक 456 गर्भवती महिलाओं को लगी कोविड-19 रोधी टीकों की दोनों खुराकः सरकार

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि पिछले हफ्ते तक तीन लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को कोविड–19 रोधी टीकों की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि सिर्फ 456 गर्भवती महिलाएं ही ऐसी हैं, जिन्हें टीकों की दोनों खुराक दी गई हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री भारती पवार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ''कोविन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक चार अगस्त 2021 तक कुल 3,05,938 गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए हैं। इनमें से 3,05,482 लाभार्थी ऐसी हैं जिन्हें पहली खुराक लगी हैं वहीं 456 लाभार्थी ऐसी हैं जिन्हें दोनों खुराक दी जा चुकी हैं।'' पवार ने बताया कि इसी अवधि के दौरान अब तक कुल 91,104 खुराक ट्रांसजेंडरों को दी गई है। इनमें 77,457 लाभार्थियों को पहली खुराक दी गई है जबकि 13,647 लाभार्थियों को दोनों खुराक दी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री कोरे चुनावी प्रचार से बाज आएं, गरीबों को 400 रुपये का सिलेंडर मुहैया कराएंः कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किए जाने को लेकर मंगलवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि कोरेचुनावी प्रचार से बाज आना चाहिए और गरीबों को 400 रुपये का एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाने के उपयोग में लाए जाने वाले तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, लेकिन सरकार स्वांग रचने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा जिले में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उज्ज्वला योजना–दो के 10 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस ऑनलाइन इस कार्यक्रम में मोदी ने उज्ज्वला योजना के पहले चरण के पांच लाभार्थियों से बातचीत भी की। सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी कर कहा, ''विडंबना देखिए, लोगों के घरों में महंगाई का अंधेरा परोसने वाले लोग अपनी योजनाओं का नाम उज्ज्वला रख रहे हैं। आज जब मोदी जी उत्तर प्रदेश के महोबा में उज्ज्वला– 2 की शुरुआत कर रहे हैं, तब देश को जानना चाहिए कि पहले उज्ज्वला के नाम पर क्या अंधेरा गरीबों के घर में परोसा गया है।'' उन्होंने यह भी कहा, ''आज खाना बनाने की गैस के दाम महोबा में 888 रुपये प्रति सिलेंडर हैजो कांग्रेस की सरकार में 400 रुपये का हुआ करता था। नाम उसका उज्ज्वला नहीं था, मगर लोगों के घरों में गैस के सस्ते दामोंकी रोशनी जगमगा रही थी।''

कांग्रेस महासचिव ने दावा किया, ''उज्ज्वला गैस लेने वाले करीब आठ करोड़ परिवारों में से 3 करोड़ परिवारों ने गैस का सिलेंडर रिफिल ही नहीं कराया है क्योंकि वो इतनी भारी भरकम कीमत नहीं चुका सकते। ज्यादातर लोग फिर से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए कि कैरोसिन की पूरी सब्सिडी भी मोदी जी ने 1 अप्रैल 2021 से समाप्त कर दी और उसके दाम दो गुना से अधिक बढ़ा दिए।'' सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा, ''हमने सुना था कि जंगल की आग पर आग से काबू पाया जाता है। आज मोदी जी पेट्रोल, डीजल खाना बनाने की गैस ,खाने का तेल सब के दामों में आग लगाकर गरीबों के पेट की आग बुझाने का स्वांग रच रहे हैं।'' उन्होंने कहा, '' मोदी जी ,कोरे चुनावी प्रचार से बाज आइए, गरीबों को उज्ज्वला की गैस कांग्रेस की तरहफिर से 400 रु में मुहैया कराइए।

बढ़ती महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसियों ने योगी मोदी मुर्दाबाद के लगाए नारे

गोंड़ा। कटरा बाजार विधानसभा कटरा थाना क्षेत्र में आज सैकड़ो कांग्रेसियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारी तव्वाज खान के नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर रैली निकाली। इस रैली के दौरान जमकर योगी और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगे, साथ ही तेजी से बढ़ रही महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, और पुलिसिया गुंडई के विरोध में सैकड़ों कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की।

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार को हटाने की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विजय कुमार पांडे, दुर्ग विजय मान सिंह प्रदेश सचिव प्रभारी जिला गोंडा शामिल रहे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के तेजतर्रार नेता व वरिष्ठ पदाधिकारी तव्वाज खान ने जमकर योगी सरकार पर हमला बोला। तव्वाज खान ने बताया कि भाजपा सरकार कांग्रेस की बनाई हुई योजनाओं को अपना नाम बताकर जनता को भ्रमित कर रही है, साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को धोखा दे रही है। तव्वाज खान ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में विधानसभा पर कांग्रेस का झंडा फहराया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सत्या पटेल प्रभारी कटरा, जिला उपाध्यक्ष खालिद अख्तर, जिला महासचिव डॉ रघुपति त्रिपाठी, जिला सचिव चंद प्रकाश तिवारी, आलोक मिश्रा, हनुमंत लाल, मंजूर अली, अखिलेश तिवारी, राकेश चौधरी, महबूब अहमद, मोहम्मद कैफ, अमरीष तिवारी, चंद प्रकाश तिवारी, व कर्नलगंज विधानसभा के वरिष्ठ पदाधिकारी वह अधिवक्ता त्रिलोकी नाथ तिवारी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रेमी ने यवुती की हत्या कर दफना दिया था शव

पुलिस ने प्रेमी सहित दो युवकों को किया गिरफ्तार

अयोध्या। जनपद के पटरंगा थाने के बकौली गांव में 10 महीने पहले गायब हुई युवती के मामले में खुलासा हो गया है। युवती के शादीशुदा प्रेमी ने ही उसकी हत्या कर शव खेत में दफना दिया था। मामले में प्रेमी सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने किया। उन्होंने बताया कि युवती प्रेमी पर शादी करने का दबाव बना रही थी तो उसे रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी ने खौफनाक कदम उठा लिया। उसे ट्यूबवेल पर बुलाया और गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को अपने दोस्तों के सहयोग से गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। खुदाई में पुलिस को लड़की का कंकाल बरामद हुआ है। घरवालों ने कपड़े देखकर उसकी पहचान की है। लड़की 16 अक्टूबर 2020 को लापता हो गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार वेद प्रकाश वर्मा पुत्र रामलखन वर्मा निवासी ग्राम बकौली थाना पटरंगा व सीताराम पुत्र गरीबे निवासी ग्राम बकौली के विरूद्ध मु0अ0सं0 202ध्20 धारा 366ध्302ध्201ध्34 भा0द0वि0 में अभियोग पंजीकृत कर दो अदद फावड़ा ध कुदाल जिससे अभियुक्त गण द्वारा गड्ढा खोदकर शव को दफन किया गया था, मृतका के कपड़े , मृतका के दाहिने पैर का चप्पल व एक अदद डिब्बा हरा प्लास्टिक का बरामद किया है। घटना का अनावरण व गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में पटरंगा थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह, उ0नि0 जितेन्द्र यादव, उ0नि0 हरिवशं यादव, उ0नि0 रामखेलाड़ी, उ0नि0 सुधीर कुमारख् का0 मनीष तिवारी, रामकिशुन यादव, अभिषेक कुमार, रामाश्रय यादव, रामकुमार सिंह व अमरेश कुमार शामिल थे।

किसान मजदूर संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में नगभारत बचाओ दिवस का आयोजन

गोंडा। किसान मजदूर संघर्ष समन्वय समिति गोंडा के तत्वाधान में 9 अगस्त भारत बचाओ दिवस का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट के जिला पंचायत टिन शेड में किया गया। इस अवसर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी गोंडा के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। धरने की अध्यक्षता साधना, मीनाक्षी खरे, अमेरिका यादव ने किया। संचालन सीआईटीयू के राज्य कमेटी सदस्य कामरेड कौशलेंद्र पांडेय ने किया। धरना प्रदर्शन में बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी, किसान मजदूर व श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्वांचल चीनी मिल कर्मचारी यूनियन के कामरेड ईश्वर शुक्ला ने कहा की सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के कारण आज किसानों मजदूरों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खेत मजदूर यूनियन के जिला संयोजक खगेन्द्र जनवादी ने खेत मजदूरों की आर्थिक समस्याओं को देखते हुए मनरेगा में मजदूरी व काम के दिन बढ़ाए जाने की बात कही। नौजवान सभा के जिला सचिव आशीष सिंह ने बेरोजगारी और शिक्षा का व्यापक स्तर पर हो रहे बाजारीकरण पर आक्रोश व्यक्त किया।

टीजीटी परीक्षा के सॉल्वर गैंग का खुलासा, 06 सदस्य गिरफ्तार

अयोध्या। एडमिट कार्ड को स्कैन कर फर्जी लोगों को परीक्षा में बैठाकर रुपये ऐंठने वाले सॉल्वर गैंग के 06 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसमें एक महिला भी शामिल है। पत्रकारवार्ता में एसएसपी शैलेश पांडेय ने खुलासा किया। बताया कि टीजीटी परीक्षा में कूटरचित आधार कार्ड, एडमिट कार्ड को स्कैन कर सॉल्वर गैंग के लोग परीक्षा दिलाते है। 08 अगस्त को पुलिस ने सूचना के आधार पर कमलेश कुमार निवासी ऐहार थाना रूदौली को पकड़ा। पूछताछ के बाद 09 अगस्त को उसके अन्य 05 साथियों कमल कुमार निवासी बारीगांव थाना बरसठी जनपद जौनपुर, सुनील यादव निवासी रनरपुर थाना सुरयावा जनपद भदोही, भारत भूषण गौतम निवासी भेलखा थाना सरायममरेज जनपद प्रयागराज, अमन केशवानी निवासी हवूसा मोड़ थाना सराय इनायत जनपद प्रयागराज और पुष्पा यादव निवासी पुरे गुलजार रूदौली जनपद अयोध्या को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। एसएसपी ने बताया कि 08 अगस्त को आयोजित टीजीटी परीक्षा के दौरान वरूण प्रताप सिंह प्राधानाचार्य एमपीएलएल आदर्श इण्टर कॉलेज धारा रोड ने सूचना दी। बताया कि उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2021 द्वितीय पाली में कमरा नं. 01 में अनुक्रमांक सं 0905012513 पर लवकुश कुमार के स्थान पर कमलेश कुमार फर्जी कूटरचित दस्तावेज से आधार कार्ड में अपना फोटो एडिट कर परीक्षा दे रहा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसकी विवेचना की जा रही थी। पूछताछ के दौरान कमलेश कुमार ने अन्य साथियों के बाबत जानकारी दी। पुलिस ने गिरोह में शामिल अन्य 05 अभियुक्त को मारवाड़ी धर्मशाला चौक से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया है। बताया कि अभियुक्त कमलेश कुमार द्वारा लवकुश कुमार की जगह एवं अभियुक्त सुनील कुमार द्वारा परिक्षार्थी ग्रीस कुमार निवासी सोहावल जनपद अयोध्या की जगह पर परीक्षा देने को कुल चार लाख रुपये में तय था । जिसमें से कमलेश कुमार परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर परीक्षा देने लगा।अभियुक्त सुनील कुमार प्रवेश करते समय चेकिंग के समय शंका होने पर भाग गया था। अभियुक्तों के कब्जे से फर्जी प्रवेश पत्र एंव आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड व घटना में प्रयुक्त इनोवा कार यूपी 14 बीएफ 8718 व 01 अदद यूपी 70 डीपी 7442 सुपर स्पेलंडर की बरामदगी की गई। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ के बाद छानबीन जारी है। सम्भव है कि कुछ और लोग गिरफ्त में आएं। बताया कि गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक सुरेश पाण्डेय थाना कोतवाली नगर, एसएसआई ओमप्रकाश, एसआई यशवन्त द्विवेदी चौकी प्रभारी चौक, सत्य प्रकाश यादव चौकी प्रभारी अलीगढ़ थाना कोतवाली नगर, सुनील कुमार यादव चौकी प्रभारी रिकाबगंज, हेडकांस्टेबल जितेन्द्र बहादुर सरोज आदि अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

रामलला का दर्शन कर राम मन्दिर निर्माण भी देख रहे श्रद्धालु

ट्रस्ट ने 15 फिट के राम झरोखे की बनाई व्यवस्था

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में अब करोड़ो रामभक्तों के लिए खुशी की खबर है. राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन के साथ श्रद्धालु मंदिर निर्माण भी अपनी आँखों से देख सकते है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य को श्रद्धालु अपनी आँखों से देख रहे। रामलला दर्शन मार्ग पर राम झरोखा बनाया गया, करीब 15 फुट के राम झरोखे से रामलला का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु मंदिर निर्माण का कार्य देख रहे हैं।राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी व्यवस्था किया है।ट्रस्ट ने करोड़ो रामभक्तों की दिल इच्छा को पूरी किया।रामनगरी पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि आज राम लला का दर्शन कर अपनी इच्छा की पूर्ति की है, हमारे पूर्वजों से या जानकारी होती थी रही है कि प्रभु राम का जन्म स्थान है आज स्थान को देखकर जो अनुभूति हुई है इसे कहा नहीं जा सकता वही बताया कि दर्शन के दौरान पूरे मंदिर निर्माण कार्य को भी देखकर बहुत आनंदित हुए हैं।उन्होंने बताया कि आज देख कर मन भर गया जब भगवान श्री राम की भव्य मंदिर निर्माण का कार्य अपनी आंखों से देखा उसके बाद रामलला का दर्शन किया आज हम अपने परिवार के साथ अयोध्या आए थे लेकिन जो सौभाग्य मिला है। यह हमेशा याद रखा जाएगा।दरसअल राम जन्मभूमि परिसर में स्थित मानस भवन के पास बने दीवार के बीच लगभग 15 फुट स्थल पर लोहे की जाली लगाई गई है। जहां से वहाँ मंदिर निर्माण कार्य को श्रद्धालु अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो वहीं उसी के सामने मंदिर के मॉडल का भी दर्शन के लिए लगाया गया है। जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु राम जन्म भूमि परिसर पहुंच गए हैं। दौरान परिसर की सुरक्षा और पत्र कर दिया गया है राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक निर्धारित समय के अनुसार ही श्री रामलला के दर्शन के साथ निर्माण कार्य का भी दर्शन कराए जा रहा है।

शहर में कांग्रेसियों ने निकाली पदयात्रा

अयोध्या। जनपद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी के आवाहन पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं प्रदेश की नाकामियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता शरद शुक्ला की अगुवाई में गुलाबबाड़ी मैदान से चौक तक पदयात्रा निकाला। कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने कहा कि डबल इंजन की केंद्र और राज्य की सरकार ने कई काले कानून , पेट्रोल डीजल और गैस के दामों से जनता को परेशान करने का काम किया है, जिसके बाद जनता ने इस बार मोदी योगी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। युवाओं की बेरोजगारी से लेकर किसान के मुद्दों पर भाजपा सरकार फेल रही हैद्य योगी सरकार की विफलताओं को हम कांग्रेस के लोग जनता के बीच ले जाने का काम कर रहे है। आज के हुए धरना प्रदर्शन से सरकार को यह बताना चाहते है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता उन्हें उनकी जगह पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हो रही है। कांग्रेस पार्टी के पद यात्रा के अभियान से किसान युवाओं और सरकार से त्रस्त जनता को जगाने का काम करेंगेद्य शरद शुक्ला ने कहा कि जनहित की समस्यों पर हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष रखा है और आगे भी रखेंगेद्य बेरोजगारी से लेकर महिला उत्पीड़न को लेकर मोदी योगी की सरकार को घरेने के लिए कांग्रेस के सिपाही मैदान में उतर चुके है और अब सरकार को यह चेतना जरुरी हो गया है कि जनता के हक की आवाज और उनके मुद्दे उनसे कोई नहीं छीन सकता हैद्य पद यात्रा के दौरान यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अमन सिंह, जिला उपाध्यक्ष चंद्रिका चौहान, जिला महासचिव दीपांशु तिवारी, सावन शर्मा, पवन गौड़, शिवा यादव, संदीप यादव, अनुभव जायसवाल, लोकेश तिवारी, अल्पसंख्यक कांग्रेस महानगर उपाध्यक्ष फिरोज अंसारी, अयोध्या विधानसभा अध्यक्ष बिलाल अंसारी, डॉ विनोद गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह फास्टर, प्रेम पाण्डेय, विराट चौधरी, गिरीश मिश्रा, शोभित शुक्ला समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

राशन लेने गई दलित महिला को कोटेदार के पुत्र ने पीटा

गोंडा। सरकार जहां अन्न महोत्सव जैसे कार्यक्रम करा कर जहां गरीबों को राशन मुहैया करवाने का काम कर रही है वहीं दूसरी तरफ कोटेदारों की मनमानी और दबंगई भी सामने आ रही है इसी क्रम में नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत परसापुर में कोटेदार की दबंगई का मामला सामने आया है।परसापुर के कैथन पुरवा की रहने वाली दलित महिला शुकुल पत्नी रामू ने प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव की कोटेदार सुशीला पत्नी राम जनक यादव और विष्णु देवी पुत्र राम जनक पिछले महीने राशन नहीं दिया और मशीन पर अंगूठा लगवा लिया और कहा कि अगले महीने तुमको दो महीने का राशन एक साथ देंगे। आज जब प्रार्थनी राशन लेने पहुची तब उसे घटतौली करके कम राशन कोटेदार के पुत्र विष्णु देव ने दिया जब इस बारे प्रार्थनी ने विरोध जताया तो विष्णु देव ने लात मुक्का थप्पड़ से मारा और जाति सूचक अपशब्द भी कहे इन सब बातों को लेकर पीड़िता ने प्रभारी निरीक्षक को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है इस मामले में थाना अध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

रिक्त कोटे की दुकान का निर्विरोध हुआ चयन

इटियाथोक,गोंडा।करुवापारा ग्राम पंचायत की रिक्त पड़ी सरकारी कोटे की दुकान का पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कोटा चयन के लिए खुली बैठक ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान पंचायत सचिव योगेश कुमार द्विवेदी, एडीओ पंचायत शमीम खां, सहायक विकास अधिकारी कृषि जगदीश प्रसाद भी मौजूद रहे।मामला विकासखंड इटियाथोक क्षेत्र की ग्राम पंचायत करुवा पारा की उचित दर विक्रेता की रिक्त दुकान के चयन से जुड़ा है। इटियाथोक कस्बे से सटे गांव करुवापारा के परिषदीय विद्यालय प्रांगण में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की चयन प्रक्रिया आरंभ हुई। प्रधान प्रतिनिधि अश्वनी मिश्र ने बताया, कि सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थित में सर्वसम्मति से आलोक कुमार शुक्ला को कोटेदार चुना गया। गौरतलब हो, कि दुकान के चयन प्रक्रिया में कुल दो उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें दूसरे उम्मीदवार राय साहब तिवारी ने अंतिम समय पर अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया।जिसके चलते आलोक कुमार शुक्ल के लिए रास्ता साफ हो गया, और वे निर्विरोध निर्वाचित हुए। सुरक्षा की दृष्टि से वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजेश कुमार पांडे, उप निरीक्षक शादाब आलम, महिला आरक्षी रेनू राय, सृष्टि वर्मा, हेड कांस्टेबल राजेश सिंह, कांस्टेबल सत्यव्रत यादव, उपेंद्र राय पूरी तरह मुस्तैद रहे। मनोज ओझा राहुल ओझा सत्यव्रत ओझा सहित सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए।

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह , गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

गोण्डा।जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के निर्देश के अनुपालन में 09 अगस्त, 2021 को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा वर्चुवल मोड से किया गया। वर्चुवल वार्ता के दौरान राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), गोण्डा के प्रभारी अधीक्षक मायाराम द्वारा बताया गया कि आज कुल 65 किशोर में से जनपद गोण्डा के 23 किशोर, जनपद बहराइच के 14 किशोर, जनपद बलरामपुर के 15 किशोर, जनपद श्रावस्ती के 11 किशोर, जनपद कानपुर व मुरादाबाद के 01–01 किशोर निरूद्ध हैं। सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना–2015 के बारे में जानकारी देते हुये बताया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना से पीड़ित ऐसे बच्चे, जिन्होंने अपने माता–पिता एवं अभिभावक खो दिये हैं और उनकी देख–रेख एवं पालन–पोषण करने वाला कोई नही है, उन बच्चों के पालन–पोषण एवं शिक्षा–दीक्षा हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा उक्त योजना प्रारम्भ की गयी है।

बीईओ के निरीक्षण में स्कूल से गायब मिले 06 शिक्षक

मिल्कीपुर–अयोध्या। हैरिंग्टनगंज ब्लॉक के चार परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। जिसमें शिक्षक व शिक्षामित्र अनुपस्थित पाए गए। बीईओ की रिपोर्ट पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडे ने शिक्षकों का एक दिन का वेतन व शिक्षामित्रों का एक दिन का मानदेय रोकने का आदेश दिया है। इस आदेश के आते ही शिक्षकों में खलबली मच गई है। हालांकि पता चला है कि कुछ विद्यालयों में सभी शिक्षक नदारद थे, लेकिन खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा कुछ शिक्षकों पर ही रिपोर्टिंग की गई है। शिक्षक नेताओं ने खंड शिक्षा अधिकारी शैलजा मिश्रा पर शिक्षकों की रिपोर्टिंग में सौतेला व्यवहार अख्तियार करने का आरोप लगाया है। बताया गया कि विगत नौ जुलाई व 23 जुलाई को हैरिंग्टनगंज की खण्ड शिक्षा अधिकारी शैलजा मिश्रा ने प्राथमिक विद्यालय अछोरा प्रथम, द्वतीय, कम्पोजिट विद्यालय स्वर्ण वर्षा व निमड़ी नवीन तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय हल्ले द्वारिकापुर का निरीक्षण किया था। जिसमें प्राथमिक विद्यालय अछोरा प्रथम की इंचार्ज प्रधानाध्यापक रेनू गुप्ता, शिक्षामित्र गीता कुमारी एवं प्राथमिक विद्यालय अछोरा द्वितीय के सहायक अध्यापक हरीश कुमार, कम्पोजिट विद्यालय स्वर्ण वर्षा की सहायक अध्यापिका रूखसाना, शिक्षामित्र राम गुलाम एवं कमलेश कुमारी विद्यालय में अनुपस्थित मिले थे। इसी तरह से कम्पोजिट विद्यालय निमड़ी नवीन के प्रधानाध्यापक आलोक कुमार, सहायक अध्यापक मनोज कुमार सिंह, शिक्षामित्र राजकुमार व कुसुम कुमारी भी विद्यालय से गायब थे। वहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय हल्के द्वारिकापुर का भी बीईओ द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसमें बीईओ ने स्कूल के प्रधानाध्यापक घनश्याम भारती पर उच्चाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन न करने तथा विभागीय कार्यों में रूचि न लेने का आरोप है। हैरिंग्टनगंज की खण्ड शिक्षा अधिकारी शैलजा मिश्रा ने बताया कि किसी भी शिक्षक या शिक्षामित्र ने अवकाश के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। जिसके बाद बीईओ ने निरीक्षण आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दिया। बीईओ की निरीक्षण आख्या को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने अनुपस्थिति पाये गए सभी शिक्षकों व शिक्षामित्रों का एक दिन का वेतन व मानदेय काटने का आदेश जारी किया है। वहीं हल्ले द्वारिकापुर जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक का अग्रिम माह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। बताते चलें कि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद हैरिंग्टनगंज ब्लॉक में बड़े पैमाने पर स्कूलों में शिक्षक अनुपस्थित मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बताया गया कि कम्पोजिट विद्यालय निमड़ी नवीन में ऑनलाइन सेल्फी में उपस्थित दो अध्यापकों का वेतन रोका गया है। प्राथमिक विद्यालय अछोरा प्रथम में बंद विद्यालय के सहायक अध्यापक का वेतन रोका गया जबकि हेडमास्टर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह से कम्पोजिट विद्यालय स्वर्णवर्षा में पाँच शिक्षकध शिक्षामित्र अनुपस्थित मिले थे। जिसमें रुखसाना ने ऑनलाइन अवकाश लिया था। रुखसाना का वेतन और दो शिक्षा मित्रों का मानदेय रोका गया है जबकि दो लोगों पर कोई कार्यवाही नही की गई है।

दो दिवसीय कार्यशाला आज से

अयोध्या। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के अंतर्गत मिशन एकीकृत औधानिक विकास योजना, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय , कोषिकोड द्वारा वित्त पोषित जिला स्तरीय सेमिनार "औषधीय एवं सगंध पौधा में उद्यमिता विकास की संभावनायें एवं चुनौतियां " विषय पर दो दिवसीय दिनांक 11–12 अगस्त को प्रेक्षागृह पशुपालन एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। सेमिनार के मुख्य संरक्षक एवं मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ बिजेंद्र सिंह होंगे ।

भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का किया गया स्वागत

किसानों, मजदूरों व गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता: हरीश श्रीवास्तव

अयोध्या। भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री हरीश श्रीवास्तव ने कौशलपुरी स्थित कार्यालय पर भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यापर्ण करके व अंगवस्त्र प्रदान करके स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय जनसम्पर्क अभियान के प्रदेश सह संयोजक व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य शक्ति सिंह व भाजपा मीडिया प्रभारी व अयोध्या मंडल के प्रभारी दिवाकर सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों का अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय जनसम्पर्क अभियान के प्रदेश सहसंयोजक शक्ति सिंह ने कहा कि भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता हमेंशा एक्टिव मोड पर रहते है। कोविड–19 की विषम परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं की सक्रियता कम नहीं हुई। पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर जरुरतमंदों की सेवा करते रहे। जिसकी सराहना आज भी लोगो के बीच हो रही है। वर्तमान में जनसम्पर्क अभियान को और गतिशील किया जायेगा। केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और उपलब्धियों को आम जनता को पहुंचाने के लिए अभियानों की श्रंखलाएं चलायी जायेंगी। भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री हरीश श्रीवास्तव ने कहा कि किसानों, मजदूरों व गरीबों की उत्थान सरकार की प्राथमिकताओं में है। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने किसानों के लिए वृहद स्तर पर काम किया है। प्रदेश आज अपराध मुक्त परिवेश की ओर अग्रसर है। यूपी इस वजह से निवेशकों की पसंद बनता जा रहा है। निवेश बढ़ने से यहां रोजगार सृजन की सम्भावनाएं भी बढ़ेंगी। मीडिया प्रभारी व अयोध्या मंडल के प्रभारी दिवाकर सिंह ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में अयोध्या का विकास है। इसके लिए सरकार ने योजनाओं की श्रंखलाएं प्रदान की है। अयोध्या के संगठनात्मक ढांचे को प्रदेश में सबसे अच्छा बनाने का प्रयास किया जायेगा। इस दौरान विधि प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक पियूष रंजन श्रीवास्तव, विदेश सम्पर्क विभाग के क्षेत्रीय संयोजक रवि तिवारी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक बृजमोहन तिवारी, ट्रस्ट समन्वय विभाग के क्षेत्रीय संयोजक प्रवीण सिंह, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं विभाग की क्षेत्रीय सह संयोजक रेणुका श्रीवास्तव का स्वागत किया गया। इस अवसर पर चन्द्रशेखर तिवारी, गौरव सिंह, देवेश कुमार मिश्रा मौजूद रहे।

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से कटरा बाजार विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत

करनैलगंज(गोंडा)। तहसील करनैलगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत निंदूरा निवासी हसरत अली खान को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से कटरा बाजार विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जिला कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2022 चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हुई तथा पार्टी का विस्तार हुआ। इस दौरान पार्टी की मजबूती के लिए कई फेरबदल किए गए जिसमें कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। एआईएमआईएम पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जावेद अंसारी ने कहा कि जिले के विकास खण्ड हलधरमऊ के अंतर्गत ग्राम पंचायत निंदूरा निवासी हसरत अली खान की इमानदारी को देखते हुए उनको कटरा बाजार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है।

केमिस्ट एंड ड्रागिस्ट एसोशिएशन की बैठक सम्पन्न

करनैलगंज(गोंडा)। नगर पालिका परिषद सभागार में केमिस्ट एंड ड्रागिस्ट एसोशिएशन की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह व संचालन संजय पुरवार ने किया। करनैलगंज के दवा व्यपारियो को संगठित होकर कार्य करने पर जोर दिया गया। बताया गया कि दवा व्यापारी आपस ताल मेल बनाए रखे। संजय गोयल, मो. समी गोंडा के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक सम्मपन्न हुई। केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पुरवार, महामंत्री मुकेश कुमार वैश्य, कोषाध्यक्ष मुकेश गुप्ता, सुरेश पुरवार, जुबेर अहमद, अशफाक लारी, मुख्तार अहमद, राकेश कुमार, कंचन, नंद गोपाल, राकेश सिंघानिया, रतन सोनी आदि दवा व्यापारी मौजूद रहे।

विद्युत विभाग से सम्बंधित सभी समस्याओं का होगा शीघ्र निस्तारण : विधायक

दैनिक बुद्ध का सन्देश

डुमरियागंज/सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज में आये दिन फाल्ट ,और लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है,जर्जर तारों की वजह से कई बार लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। बिजली विभाग के विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए मंगलवार को पी डबलू डी गेस्ट हाउस में डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अधीक्षण अभियंता सिद्धार्थनगर अरुण कुमार श्रीवास्तव के साथ बैठक किया। जिसमें विधुत विभाग से सम्बंधित क्षेत्र के जर्जर तारों, जर्जर और नए पोल, ट्रांसफार्मर

क्षमता वृद्धि, नया सब स्टेशन बनाने, पुराने सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि करने व अन्य विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए कार्ययोजना बनी और नए सब स्टेशन व भंडार गृह निर्माण हेतु प्रबंध निदेशक वाराणसी से फोन पर वार्ता भी किया जिसके जल्द निर्माण के लिए आश्वासन दिया और बिजली चोरी ना होने पाए इस लिए रिबैम्प योजना के अंतर्गत नया सब स्टेशन बनाने,पुराने सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि करने,फीडर बढ़ाने,फीडर का जर्जर तार बदलने, सभी मीटरों कों बदल कर स्मार्ट मीटर और प्रीपेड बिल का कार्य प्रारम्भ करने के बारे में बात हुई। इस अवसर पर रमेश श्रीवास्तव, उदयपाल वर्मा, सभासद राजीव कुमार, अधिशाषी अभियंता डुमरियागंज रामसूरत, अधिशाषी अभियंता बांसी ए के चौधरी, उप खंड अधिकारी डुमरियागंज बबलू कुमार चौधरी, उप खंड अधिकारी बाँसी दीपक सिंह, अवर अभियंता अजीत कुमार सिंह, कृष्ण कुमार आदि उपस्थित रहे।

सामुहिक रुद्राभिषेक का पूर्णाहुति एवं भंडारा सम्पन्न

9 दिवसीय सामुहिक रुद्राभिषेक एवं कथा कार्यक्रम के उपरान्त हुआ पूर्णाहुति एवं भव्य भण्डारा

दैनिक बुद्ध का सन्देश

शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ के शिवबाबा मंदिर परिसर में चल रहे 9 दिवसीय कथा एवं सामूहिक रुद्राभिषेक के बाद मंगलवार को पूर्णाहुति एवं भंडारे का अयोजन किया गया।अयोध्या धाम से पधारे आचार्य राम प्रकाश दास एवं अमर वैदिक ने दिव्य वेद मंत्रोच्चार के साथ हवन एवं पूर्णाहुति का कार्य संपन्न कराया तत्पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें श्रद्धालु भंडारा प्रसाद ग्रहण करके कृतकृत्य हो गए। आयोजक मंडल के सदस्य पप्पू बाबा ने कहा कि ऐसा आयोजन हर वर्ष होना चाहिए और सांसद प्रतिनिधि

सूर्य प्रकाश पांडे पहलवान भैया ने कहा समाज में धार्मिक एवं आपसी सौहार्द बना रहे श्री पहलवान ने यह भी कहा की धार्मिक आयोजनों से समाज में धार्मिकता और आपसी भाईचारा विकसित होता है।श्री स्वामी सूर्यकांताचार्य जी महाराज ने कहा संस्कृति और संस्कार के विकास के लिए धार्मिक आयोजनों का होना नितांत आवश्यक है आगे उन्होंने कहा कि समाज में जो करप्शन बढ़ रहे हैं इसको रोक सकते हैं और यह संस्कार हमें धार्मिक आयोजनों से ही मिलते हैं।इस अवसर पर पंडित आचार्य राम प्रकाश दास, सांसद प्रभारी सूर्यप्रकाश पांडेय, बीरेंद्र मोदनवाल, पप्पू बाबा, शिवपूजन वर्मा (भोलेनाथ) गोपी रुंगटा, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि सौरभ गुप्ता, केपी गुप्ता, किशोरी लाल गुप्ता, शिव प्रसाद वर्मा पूर्व चेयरमैन, महेश गुप्ता, रिंकू पटवा, टिंकू वर्मा, रवि अग्रवाल, दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी, समाज सेविका दीपिका शाह, विशुनदेव तिवारी, सर्वेश सिंह, रामबृक्ष गौड़, जयप्रकाश वर्मा, नीरज त्रिपाठी, माधुरी मिश्रा आदि सरकार नहीं अपितु हमारे संस्कार मौजूद रहे।

चिल्हिया थाना परिसर मे पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न

दौरान अराजक तत्वों पर पुलिस कि पैनी नजर रहेगी

दैनिक बुद्ध का सन्देश

शोहरतगढ़/सिद्धार्थ नगर।

पीस कमेटी की बैठक मंगलवार को चिल्हिया थाना परिसर मे सम्पन्न हुई। आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ प्रदीप कुमार यादव ने कोविड– 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पर्वों को मनायें।जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो पुलिस को तत्काल सूचित करे । और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सभी लोग मास्क का प्रयोग करें।बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें।उन्होंने कहा कि पर्वों के दौरान अराजक तत्वों पर पुलिस कि पैनी नजर रहेगी।किसी प्रकार कि अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।त्योहारों को शान्तिपूर्ण तरीके से पर्वों को घर ही मनाये।नई परंपरा की शुरुआत न करे। बैठक के दौरान चिल्हिया थाना प्रभारी यशवंत सिंह ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आगामी त्योहारों में सार्वजनिक स्थानों ताजिया रखने व जुलूस निकालने पर शासन से रोक लगा है। आगामी त्यौहारों को शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से कोरोना से बचाव के नियमो का पालन करते हुए मनाने की अपील की।इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ प्रदीप कुमार यादव, थानाध्यक्ष चिल्हिया यशवंत सिंह, चौकी प्रभारी पल्टादेवी तरुन कुमार शुक्ला, एसआई विरेन्द्र पासवान, नन्दा प्रसाद, नरेन्द्र तिवारी, गौरीश,रिंकी तिवारी, विकास सिंह व ग्राम प्रधान अब्दुल अजीज, इबरार अली,अवनेंद्र चौधरी, सुनील सिंह, भारत, जाफर आलम,जीवन श्रीवास्तव, कालीचरन,सिकंदर यादव, मनोज सिंह आदि लोग मौके पर मौजूद रहे।

कांग्रेसियों ने मंहगाई व बेरोजगारी पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया

दैनिक बुद्ध का संदेश

हाटा/कुशीनगर। क्रांति दिवस के अवसर पर 334 विधानसभा हाटा मुख्यालय पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। भाजपा गद्दी छोड़ो नारे के साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव त्रिभुवन नारायण मिश्र की गरिमामयी उपस्थित में कार्यक्रम प्रभारी व जिला उपाध्यक्ष व्यास ओझा के नेतृत्व में असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्वी जोन के प्रभारी सुभाष जायसवाल प्रदेश सचिव अमरेंद्र प्रताप मल्ल पीसीसी सदस्य हिमांशु मिश्र व पीसीसी सदस्य प्रमोद पांडे आनंद मणि अभय शंकर त्रिपाठी,जन सूचना अधिकार के प्रदेश सचिव सुदामा गिरी ब्लॉक अध्यक्ष हाटा सत्यजीत त्रिपाठी, मोतीचक ब्लाक अध्यक्ष गोरख साहनी ब्लाक अध्यक्ष सुकरौली संतोष जायसवाल जिला सचिव अरशद खान व जिला सचिव संतोष कुमार कनौजिया ब्लॉक उपाध्यक्ष बंधु यादव सहित हजारों की संख्या में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत डाक बंगल से पदयात्रा करते हुए हाटा बाजार और फल मंडी होते हुए बाघनाथ चौराहा शहीद स्थल पर आकर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोषी ठहराते हुए भाजपा गद्दी छोड़ो का नारा लगाते हुए क्रांति दिवस के इस अवसर पर अमर शहीदों को याद करते हुए अपनी पदयात्रा को समाप्त किया।

रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सुनीत शर्मा से सांसद जगदम्बिका पाल ने की मुलाकात

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सिद्धार्थनगर। दिल्ली में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सुनीत शर्मा से

मिलकर खलीलाबाद से बहराइच वाया बांसी डुमरियागंज, उतरौला बलरामपुर श्रावस्ती नई रेल लाइन को शुरू कराने के संबंध में एवं जिला मुख्यालय नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के भीमापार रेलवे फाटक खोलने एवं स्थायी समाधान के लिए एक रेलवे अंडर पास बनाने की मांग की। भीमापार रेलवे फाटक बंद हो जाने से दर्जनों गांवों का आवागमन बन्द हो गया है। इस अवसर पर पूर्व सांसद एवं जिला परिषद अध्यक्ष दद्दन मिश्रा भी उपस्थित रहे।

'किसान यूनियन ने स्वच्छता को लेकर सहायक विकास अधिकारी के ऊपर लगाए आरोप'

अनंत मिश्रा/दैनिक बुद्ध का संदेश

उसका बाजार। किसान यूनियन ने उसका ब्लॉक परिसर में

जोरदार धरना प्रदर्शन किए स्वच्छता को लेकर विरोध जताया है स्वच्छता को लेकर प्रशासन पर तंज भी कसे और सहायक विकास अधिकारी के ऊपर आरोप भी लगाए की सहायक विकास अधिकारी के मिली भगत से सफाईकर्मी मनमानी कर रहे है गांव में कही भी सफाई नही होता है किसान यूनियन लगातार नारे लगाते रहे और इनका कहना है की किसानों की फसल ज्यादा से ज्यादा बर्बाद हो रहा है किसान दिन रात मेहनत करके अपनी फसल की रखवारी करता है जो छुटे हुए पशु है फसल को बर्बाद कर देती है किसान यूनियन के कार्यकर्ता नंदराम ने बताया कि छुटे हुए पशु को गौशाला में रखा जाय नही रख पा रहे है तो गौशाला को तोड़ दिया जाय कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी गौशाला की किसान यूनियन के लोगो ने खण्ड विकास अधिकारी संजय कुमार को ज्ञापन सौप कर निम्न बिंदुओ की जांच करने की उठाई मांग।खण्ड विकास अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही होगी।इसमें उपस्थित – नंदराम यादव , राकेश दूबे, भुघुनी,,कमलावती, विन्द्रावती,अवधराज, राधा प्रसाद आदि लोग रहे मौजूद।

नए पुलिस मुखिया डॉ विपिन टाडा ने कार्यभार किया ग्रहण

दैनिक बुद्ध का संदेश

गोरखपुर। 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ विपिन टाडा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पुहंच कर पद भार किया ग्रहण अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। फरियादियों को न्याय सगत न्याय देना पहला कर्तब्य छोटी से छोटी धटनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाना पहला उद्देश्य। डॉ टाडा पदभार ग्रहण करने से पहले गोरखनाथ मंदिर पहुच कर गुरु गोरक्षनाथ बाबा का आशीर्वाद लेकर मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले कर सम्बंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मूल रूप से जोधपुर के राजस्थान के रहने वाले विपिन टाडा एमबीबीएस की पढ़ाई की है। पिता मच्छीराम पेशे से वकील हैं। आईपीएस बनने के बाद वह अपने सखघ्त रवैए के लिए जाने जाते हैं अपने काम और जिम्मेदारी को लेकर वह ट्रेनिंग के दौरान से ही काफी गम्भीर रहे हैं विपिन टाडा गोरखपुर आने से पहले बलिया के कप्तान थे उससे पहले रामपुर

के भी कप्तान रहे हैं और उस दौरान उन्होंने एक व्यापारी को अपहरण कर फिरौती के मामले का महज कुछ ही दिनों में खुलासा कर दिया था जिसके बाद उनकी काफी तारीफ हुई थी। डॉ विपिन टाडा ईनामी बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजने और जिले में कानून व्यवस्था कायम रखने के उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किए जा चुके हैं। इसके लिए उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई की। उन्होंने इंटर के बाद एक साल कोचिंग की। पहले प्रयास में 2002 में एमबीबीएस के लिए सलेक्ट हो गए। इसके बाद राजस्थान के एक गांव में सरकारी अस्पताल में चिकित्साधिकारी बन गए। वहां आठ महीने तक रहे। तब उन्हें लगा कि डॉक्टर बनकर चंद मरीजों की सेवा की जा सकती है, लेकिन सिविल सेवा में रहकर बहुत से लोगों की सेवा का मौका मिलता है। उन्होंने इसी नजरिये से सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। 2011 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए उनका सलेक्शन हो गया था विपिन टाडा स्पोर्ट्स में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं उन्हें साइकलिंग का बहुत शौक है। जहाँ जहाँ पर उनकी तैनाती की गयी, वह वहाँ अक्सर शाम में साइकलिंग करते देखे गए।

ठेड़छाड़ की दर्ज मामले में गिरफ्तारी के लिए गठित हुई टीम

दैनिक बुद्ध का सन्देश

कसया/कुशीनगर। कसया थाना क्षेत्र के खोराबर में बीते 22 जुलाई को गांव के कुछ युवकों द्वारा एक यूवती को बहला फुसलाकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का आरोप लगा था मामला एक दूसरे वर्ग के होने के कारण बहुत गम्भीर था पुलिस तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था मंगलवार को गांव में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री राजेश्वर सिंह ने मामले की जानकारी ली और अधिकारियों से मौके से बात की और अधिकारियों को कहा कि सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करें नहीं तो हम गांव में कैम्प करेंगे उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है मामले मे मुकदमा दर्ज 15 दिन हुआ लेकिन किसी मुलजिम का गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है गांव में इसको लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है ग्रामीणों ने सिंह से मांग किया कि मुलजिम गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम सभी लोग समझौता नहीं किया तो हम लोग जान से मार देंगे इसको लेकर गांव में दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है इस दौरान जिला महामंत्री रूपम सिंह अमित राव सुमंत दूबे शैलेन्द्र अमित रबि आदि मौजूद रहे थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुल्जिमों को धरपकड़ के लिए टीम गठित कर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

स्व राजनारायण चन्द की मनायी गयी प्रथम पुण्य तिथि

गोला चन्द चोराहे पर स्थित आवास पर क्षेत्र से भारी संख्या में पहुच कर लोगो ने दी श्रद्धांजलि

दैनिक बुद्ध का संदेश

गोला/गोरखपुर। जनपद के दक्षिणांचल में शिक्षा क्षेत्र के मालवीय पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्व राजनारायण चन्द की प्रथम पुण्य तिथि गोला के चन्द चौराहे पर स्थित चन्द आवास पर बड़े ही श्रद्धा के साथ मंगलवार को मनाया गया। इस पुण्य तिथि में चिल्लूपार विधान सभा क्षेत्र के कोने कोने से आये लोगो ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया। इस अवसर पर उनके बड़े पुत्र पूर्व जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रणविजय चन्द अपने पिता स्वर्गीय चन्द के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि पिछले बर्ष अस्वस्थ होने के कारण उन्हें लखनऊ इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। लेकिन लाख प्रयास के बाद भी हमारे बीच मे नही रहे। उनकी कमी परिवार व क्षेत्र के लोगों में बराबर बनी रहेगी। स्वर्गीय पिताजी के बताए गए मार्ग का अनुसरण करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रदेश महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष अस्मिता चन्द ने कहा कि ब्यक्ति अपने द्वारा समाज के लिए किये गए अच्छे कार्यो से महान बनता है। और समाज उनको निरन्तर याद करते रहता है। उसी क्रम में आज पिता जी स्वर्गीय राजनारायण चन्द जी हम लोगों के बीच मे नही है लेकिन उनकी छाया हमेशा हमेशा बिद्यमान रहेगी। उन्होंने जो बट बृक्ष तैयार कर दिया है उसकी छाया समाज को हमेशा मिलता रहेगा। इस प्रथम पुण्यतिथि पर चन्द परिवार के सभी लोग उपस्थित हो कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर राम भजन चन्द, ड़ा तेज नारायण चन्द, देवेंद्र चन्द, राज बहादुर सिंह, बलजीत सिंह, नागेंद्र शर्मा, अशोक दुबे, सुधाकर पांडेय, गंगा सिंह, सुरेंद्र मिश्रा, विजय पति सिंह, अवधेश दुबे, राजाराम, भिखारी निषाद, शोक वर्मा, सन्तोष शुक्ला, मनोज तिवारी, दिलीप सिंह, सहित भारी संख्या पूरे विधान सभा क्षेत्र के हर कोने से आये लोगो ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया।

पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज

दैनिक बुद्ध का संदेश

कुशीनगर। रविवार की शाम को हनुमानगंज थानाक्षेत्र के ग्रामसभा मंशा छपरा निवासी एक व्यक्ति के द्वारा अपने अपने ही गांव निवासी एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार को धरनीपट्टी चौराहे पर अकारण ही सरेआम अपमानित करते हुवे मारने पीटने पर उतारू हो गया था। सरेआम हुई घटना से पत्रकार काफी आहत हो गया और इस घटना की तत्काल सूचना अपने साथी पत्रकारों सहित पत्रकार संगठनों को दे दिया। सभी ने आपसी विचार विमर्श करने के बाद यही निर्णय लिया कि उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्यवाही की मांग किया जाये और देर देर शाम तक पीड़ित पत्रकार ने हनुमानगंज थानाध्यक्ष को तहरीर दे दिया। दिये गए तहरीर के आधार पर सोमवार की देर रात को हकीम पुत्र गफूर के खिलाफ धारा 323, 504 और 506 का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उपरोक्त प्रकरण में हनुमानगंज थानाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने बताया कि पत्रकारों के साथ किया गया दुर्व्यवहार क्षम्य नही है, यदि कोई भी पत्रकारों के साथ अमानवीय कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

हाटा मे मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव

दैनिक बुद्ध का संदेश

हाटा/कुशीनगर। आज 9 अगस्त काकोरी कांड वह विश्व आदिवासी दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में हाटा नगर में आज सोमवार को शहीद स्मारक स्थल पर नगर पालिका हाटा द्वारा आयोजित एनसीसी छात्रो के रैली मार्च तहसील से निकालकर महापुरुषों की प्रतिमाओ पर माल्यार्पण करते हुए शहीद स्थल गोरखपुर चौराहा पहुंचा। आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ

वंदे मातरम गांव से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक पवन केडिया ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारी जनों को अंग वस्त्र वह मिठाई देकर सम्मानित किया इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि आज हम हवा में खुली सांस ले रहे हैं यह उन शहीदों की बलिदान की देन है। कार्यक्रम को उप जिलाधिकारी पी के त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी अजय कुमार सिंह ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन मधुसूदन मिश्र ने किया। इओ ने सभासदो को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने वर्चुअल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ के संवाद को सुना। इस मौके पर तहसीलदार सुमित कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी भावना सिंह, सभासद मुंशी सिंह, सुबाष भारती, राकेश रमण मिश्र, रजनीश बर्नवाल, आनन्द वर्मा, मनीष चौरसिया, हरिनाथ सिंह, रणजीत सिंह, रामप्यारे भारती इत्यादि लोग मौजूद रहे।

नेबुआ राय गंज के बाजार में मिला अज्ञात बृद्ध व्यक्ति का शव

दैनिक बुद्ध का संदेश

कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया थानाक्षेत्र के अंतर्गत स्थित नेबुआ राय गंज के बाजार परिसर मे एक अज्ञात 70 वर्षीय बृद्ध का शव को देखकर ग्रामीणों ने इसकी सुचना स्थानीय थाने पर दे दिया। दिये गए सूचना के आधार पर पहुँची नेबुआ नौरंगिया पुलिस ने शव को अपने कब्जे मे लेकर आवश्यक कार्यवाही करने के बाद पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। उक्त बाजार के हाट पैड पर मंगलवार की सुबह लगभग 70वर्षीय एक बृद्ध के शव को पड़ा देख ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को इसकी सुचना दिया था। जिस पर मौके पर पहुँची पुलिस ने शव किसका है इसका पहचान करवाना चाहा पर, नही हो सका। ग्रामीणों के अनुसार उक्त व्यक्ति क्षेत्र मे इधर उधर भ्रमण करता रहता था। इस संबंध मे नेबुआ नौरंगिया थानाध्यक्ष मिथलेश राय ने बताया कि शव की शिनाख्यात नही हो पाई है। पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। खबर लिखे जाने तक शव की शिनाख्त नही हो सका था।

सम्पादकीय

अब पीछे नहीं देखना, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून बदलेगा

इसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की पहल पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का कानून बना और वोडाफोन ग्रुप को फिर से टैक्स चुकाने का नोटिस दिया गया। केयर्न एनर्जी पीएलसी की भारत में अश्वयल फील्ड में हिस्सेदारी कई इकाइयों में बंटी थी। कंपनी ने 2006 में ...

पहले हुए सौदों पर टैक्स (रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स) कानून में संशोधन के लिए सरकार विधेयक लेकर आई है, जिससे ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप और केयर्न एनर्जी पीएलसी सहित 17 कंपनियों के साथ कानूनी मुकदमे खत्म हो जाएंगे। यह कानून 28 मई 2012 को यूपीए सरकार ने लागू किया था। इसमें कहा गया था कि सरकार उन मामलों में 50 साल पुराने सौदों में हुए कैपिटल गेन पर टैक्स की मांग कर सकती है, जिनमें मालिकाना हक भले ही विदेश में हुई डील से बदला हो, लेकिन उससे संबंधित संपत्तियां भारत में हों।
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर देश में दो सबसे चर्चित मामले वोडाफोन ग्रुप और केयर्न पीएलसी से जुड़े रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत वोडाफोन मामले से हुई थी। 2007 में वोडाफोन ग्रुप ने केमन आइलैंड की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को खरीदा, जिसके पास हॉन्गकॉन्ग के उद्योगपति ली का शिंग के भारतीय टेलिकॉम बिजनेस यानी हचिसन एस्सार का मालिकाना हक था। भारत के टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सौदे पर ब्रिटिश कंपनी से 200 करोड़ का टैक्स मांगा। वोडाफोन ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी और केस जीत गई।

इसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की पहल पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का कानून बना और वोडाफोन ग्रुप को फिर से टैक्स चुकाने का नोटिस दिया गया। केयर्न एनर्जी पीएलसी की भारत में ऑयल फील्ड में हिस्सेदारी कई इकाइयों में बंटी थी। कंपनी ने 2006 में इनका सबका केयर्न इंडिया लिमिटेड के साथ मर्जर यानी विलय किया। यह केयर्न इंडिया को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की तैयारी थी। टैक्स डिपार्टमेंट ने दावा किया कि इस मर्जर से केयर्न एनर्जी पीएलसी को लाभ हुआ है और उसने 2015 में कंपनी से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की मांग की।

इनमें से एक मामला यूपीए सरकार और दूसरा एनडीए सरकार का है। केयर्न से टैक्स वसूली के लिए सरकार ने उसके शेयर जब्त करके बेच दिए और डिविडेंड से मिली रकम भी रख ली। केयर्न और वोडाफोन दोनों ही मामलों को अंतरराष्ट्रीय अदालतों में ले गईं, जहां फैसला उनके हक में आया। फिर भी भारत सरकार अड़ी रही और उसने अंतरराष्ट्रीय अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील की राह पकड़ी।

केयर्न ने तो इस फैसले के मुताबिक वसूली के लिए भारत सरकार की न्यूयॉर्क से लेकर पैरिस तक की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे सरकार की फजीहत हो रही थी। ऐसे में इस विवादित कानून को खत्म करने का फैसला सही है।

यूं भी एनडीए सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने यूपीए दौर के श्टैक्स टेररिज्मश्च को खत्म करने का वादा किया था। लेकिन वैश्विक निवेशकों के बीच छवि बेहतर करने के लिए उसे और भी कदम उठाने होंगे। सरकार का अभी वॉलमार्ट की कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ ड्राफ्ट कंस्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे ही कई विवाद अन्य विदेशी कंपनियों के साथ चल रहे हैं। केंद्र को इन झगड़ों को भी खत्म करने की पहल करनी होगी।

क्या आ गई तीसरी लहर

कोरोना के नए केसों की संख्या में फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई है। मई में दूसरी लहर की पीक के बाद से हर हफ्ते नए केसों की संख्या कम होते जाने का सिलसिला पिछले सप्ताह थम गया। खास बात यह कि कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भले केरल में पाए जा रहे हों, नए केसों में बढ़ोतरी दिल्ली समेत 13 राज्यों में देखी गई है। खासकर पहाड़ी राज्यों– हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो यह बढ़ोतरी क्रमशरू 64 फीसदी और 61 फीसदी की है। जाहिर है, तीसरी लहर के जिस खतरे की बात लगातार की जा रही थी, वह अब करीब आ गया है। दुनिया के कई अन्य देश कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ती संख्या की चपेट में हैं। जापान में ओलिंपिक खेल तो कार्यक्रम के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन कोविड केसों की बढ़ती संख्या के चलते देश के कई हिस्सों में आपातकाल लागू करना पड़ा है। चीन तो कोरोना से उबर चुका था, लेकिन वहां भी इसने फिर तेजी से सिर उठाया है। नानजिंग शहर इसका नया केंद्र है। 50 फीसदी से ज्यादा आबादी का टीकाकरण हो जाने के बावजूद अमेरिका में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और काफी हद तक यूरोपीय देशों में भी। अपने देश में तो टीकाकरण की रफ्तार भी काफी कम है। करीब 94 करोड़ की वयस्क आबादी में से जुलाई के अंत तक 10.3 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी। यानी लगभग 11 फीसदी।

हाल में सीरो सर्वे के आंकड़ों ने जरूर राहत दी थी, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि उसी सर्वे के मुताबिक करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनमें एंटी बॉडीज नहीं डिवेलप हुई हैं। जाहिर है, किसी भी तर्क से हम तीसरी लहर के खतरे को कम करके नहीं आंक सकते। ऐसे में बचाव के उपायों को तेज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा पहला उपाय टीकाकरण की रफ्तार को यथासंभव तेज करना ही है। पक्ष और विरोध में होने वाली राजनीतिक बयानबाजियों को किनारे करके देखें तो पिछले महीने सरकार ने करीब 66 करोड़ डोज टीकों के ऑर्डर बुक किए हैं। इसके मद्देनजर उम्मीद की जा सकती है कि टीकों की कमी की वैसी समस्या इस महीने नहीं रहेगी जैसी पिछले महीनों में दिखी थी। लेकिन तेज टीकाकरण की राह में यह एकमात्र बाधा नहीं है। सरकारी तंत्र की सीमाएं और आम लोगों की बेरुखी जैसी अड़चनें भी हैं। साल के अंत तक पूरी वयस्क आबादी को टीकाकरण के दायरे में लाने का लक्ष्य पूरा करना है तो रोज करीब 92 लाख डोज देने होंगे। मौजूदा औसत करीब 38 लाख का है। इसके अलावा नए–नए वैरिएंट पर टीकों का कितना असर होता है, यह भी देखना होगा। कुल मिलाकर, जितना हो सके टीकाकरण में तेजी जरूर लाई जाए, लेकिन बचाव का सबसे भरोसेमंद तरीका अभी भी मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना और सावधानी बरतना ही होगा।

संसद में हवा हवाई हंगामा

सरकार बार–बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह दोनों सदनों के नियमों, प्रावधानों एवं चेयरमैन एवं स्पीकर साहब के दिशा–निर्देशों के तहत कोरोना महामारी, किसान, महंगाई, जल शक्ति जिसमें बाढ़ भी शामिल है, आदि सभी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। कथित जासूसी मामले पर भी सरकार ने बिना समय गंवाए संसद में बयान दे दिया है। लेकिन कांग्रेस, विपक्ष का स्वयंभू चौधरी बनने की चतुराई में लगी है...

मुख्तार अब्बास नकवी

विपक्ष ने एक बार फिर देश को निराश किया है। छह महीने से संसद का सत्र बुलाने और कोरोना संकट सहित तमाम विषयों पर विस्तृत चर्चा की रट लगाने के बाद जब संसद का सत्र वास्तव में चल रहा है तो विपक्ष ने एक दिन भी कार्यवाही में शामिल होने की दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यही नहीं, विपक्षी नेताओं ने बातचीत में यह साफ कर दिया है कि उनकी ओर से पूरा सत्र वॉशआउट यानी धुल चुका है। तमाम मीडिया इस पर रिपोर्ट भी कर चुका है। कुछ विपक्षी दलों द्वारा ऐसी गैर जिम्मेदाराना राजनीति की चौधराहट में देश का सबसे पुराना दल, कांग्रेस, सबसे आगे हैं। मई की शुरुआत में लेकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति से मांग की थी कि फौरन संसद का विशेष सत्र आहूत करें। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सत्र बेहद आवश्यक है क्योंकि सभी राज्यों से आने वाले तमाम सांसद अपने क्षेत्र में कोरोना संकट को लेकर उत्पन्न स्थिति के बारे में कुछ न कुछ कहना चाहते हैं और लोगों को कोरोना संकट से निजात दिलाने के लिए समाधान चाहते हैं। कांग्रेस के नए मित्र शिवसेना के सांसद और नेता संजय राउत ने भी विशेष सत्र की मांग दोहराई थी। जब सरकार की ओर से यह आग्रह किया गया कि पूरा सरकारी तंत्र, कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने में जुटा है और संसद सत्र में लोगों का जुटना खतरे से खाली नहीं है तो विपक्ष ने कई दिनों तक इस पर तीखी बयानबाजी भी की थी। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र का आगाज हुए एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। जो विपक्ष कोरोना की दूसरी लहर में अप्रत्याशित संकटों के बीच सत्र के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगा रहा था उसने अब तक एक दिन भी कामकाज चलने नहीं दिया है। यहीं नहीं, सत्र के पहले दिन जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी दलों के संसद के नेताओं को कोरोना से चल रही लड़ाई ओर सरकार के उपायों, भविष्य की तैयारियों का ब्योरा देने के लिए एक विशेष बैठक का आमंत्रण दिया तो कांग्रेस सहित कुछ नेताओं ने भवें चढ़ाकर कहा था कि जब सत्र शुरु हो गया है तो अलग से बैठक क्यों? जो कहना है सरकार को संसद के पटल पर ही करना चाहिए। इन बयानों से साबित हो गया था कि विपक्ष, संसद सत्र को लेकर बितना इच्छुक और गंभीर है। जबकि कोरोना पर ऑल पार्टी मीटिंग का सुझाव भी कांग्रेस की तरफ से आया था। यह गंभीरता काफूर हो गई जब पहले सप्ताह में ही विद्वानों का सदन कहे जाने वाले राज्यसभा में एक वरिष्ठ मंत्री के हाथा से छीनकर कागज फाड़े गए। लोकसभा में तो स्थिति यहां तक पहुंच गई कि विपक्षी सदस्य अध्यक्ष पर कागज के टुकड़े फेंकने लगे और सदन ही नहीं गैलरी में बैठ पत्रकारों की ओर भी कागज फाड़ कर उछाले गए। सदन की कार्रवाई का ब्योरा नोट करने वाले अधिकारियों को भी प्रताडिघ्त करने से नहीं चुके। इन तमाम नाटकीय स्थितियों के लिए विपक्ष कथित पेगासस जासूसी कांड का सहारा ले रहा है। गौरतलब है कि इस विवाद पर सरकार के संबंधित मंत्री दोनों सदनों में बयान दे चुके हैं। मुमकिन है विपक्ष उनके बयान से संतुष्ट न हुआ हो। अगर ऐसा था तो सबसे उत्तम फोरम राज्यसभा है जहां नियमों के मुताबिक किसी भी मंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण पूछने का प्रावधान है। लेकिन वहां तो विपक्ष का फोकस मंत्री के बयान को हंगामें में दबाने और फिर उनके हाथ से कागज छीनने में था। अब तक विपक्ष के रवैये से कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। क्या कोरोना पर संसद का इमरजेंसी सत्र बुलाना सिर्फ सरकार का ध्यान भटकाने का पैंतरा था? अगर मंशा चर्चा की थी तो लगभग डेढ़ हफ्ते से विपक्ष चर्चा के अलावा बाकी सब कुछ क्यों कर रहा है? या कोरोना की दूसरी लहर काबू होने के बाद केवल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते देख विपक्ष कोरोना की बहस के उल्टा पडने की आशंका से यू–टर्न ले रहा है? या विपक्ष को डर हे कि विस्तृत चर्चा हुई तो उसके मुख्यमंत्रियों की भी कलई खुल जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी सकरार के खिलाफ विपक्षी एकता का दम भी रहे नेता डर रहे हैं कि बिंदुवार चर्चाओं से यह कथित एकता तार–तार हो जाएगी? यदी ऐसा है कि यहां यह बताना उचित होगा कि विपक्ष की एकताा का दावा कितना खोखला है यह आए दिन वैसे भी उजागर हो ही रहा है। जब कांग्रेस बैठक बुलाती है तो तृणमूल के सांसद गायब रहते हैं और जब तृणमूल के नेता क्षेत्रीय दलों से मिलते हैं तो कांग्रेस कन्नी काट लेती हैं। वास्तविकता यह है कि कोरोना के संकट काल में संकट के समाधान का हिस्सा बनने के बयान कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दल सियासी व्यवधान का किस्सा गढ़ते रहे। एकजुट होकर एक महामारी से लडने के बजाय, सरकार का काम डीरेल करने के लिए भयंकर बीमारी के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने का शिगूफा छेडने वाले, अब संसद में एक ऐसा हवा हवाई मुद्दे पर काम ठप्प किए बैठे हैं जिस पर न तो आम भारतीय का कोई ध्यान है और न ही दिलचस्पी। इससे पहले भी जनता के मूड को समझे बगैर इधर–उधर के मुद्दों पर बवाल करने की कीमत विपक्ष चुका रहा है। इस बार भी उसका यही हश्र होगा, यह तय है। सरकार बार–बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह दोनों सदनों के नियमों, प्रावधानों एवं चेयरमैन एवं स्पीकर साहब के दिशा–निर्देशों के तहत कोरोना महामारी, किसान, महंगाई, जल शक्ति जिसमें बाढ़ भी शामिल है, आदि सभी ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। कथित जासूसी मामले पर भी सरकार ने बिना समय गंवाए संसद में बयान दे दिया है। लेकिन कांग्रेस, विपक्ष का स्वयंभू चौधरी बनने की चतुराई में लगी है। कांग्रेस अपनी नकारात्मक सोंच को संपूर्ण विपक्ष का फैसला बताकर उन विपक्षी दलों की सहारात्मक सोंच को भी बंधन बनाना चाहती है जो सदन में चर्चा और कार्य करने के पक्ष में हैं। (लेखक उपनेता, राज्यसभा एवं केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार हैं)

आज देश को जोडने वाली सोच, जोडने वाली राजनीति चाहिए। पर हमारे राजनेता, जोडने वाली बात तो करते हैं, पर राजनीति तोडने वाली ही कर रहे हैं। कब्रिस्तान और श्मशान का नाम लेकर होने वाली राजनीति, जनगणना में धार्मिक संतुलन की बात करने वाले नेता और जाति के आधार पर वोट बांटने का गणित लगाने वाले चुनावी–रणनीतिकार देश को जोड़ते नहीं, तोड़ते हैं। सच तो यह है कि देश ...

भारतीय चेतना को जागृत करने का संकल्प

विश्वनाथ सचदेव

मानवीय संवेदनाओं को साकार करने वाले बाबा आम्टे ने आज से लगभग पैंतीस साल पहले एक नारा दिया था देश को–भारत जोड़ो। नौ अगस्त, 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा देश को दिये गये एक संकल्प श्अंग्रेजो भारत छोड़ोश्च की तर्ज पर दिया गया यह नारा वस्तुतरू राष्ट्रपिता के आह्वान की अगली कड़ी ही था। बापू ने आजादी की लड़ाई के निर्णायक कदम को साकार किया था और उसके लगभग पांच दशक बाद बाबा आम्टे ने आजादी के उद्देश्य को पूरा करने की राह दिखायी थी। बाबा आम्टे ने श्भारत जोड़ोश्च के लिए आह्वान करते हुए कहा था, श्बिना रचनात्मक काम के राजनीति बांझ है और बिना राजनीति के रचनात्मक काम नपुंसक।श्च इस रचनात्मक काम से उनका तात्पर्य आसेतु–हिमालय भारत को सही अर्थों में एक राष्ट्र बनाना था। एक ऐसा राष्ट्र, जिसमें धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग की दीवारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। यह सब होंगे तो सही, पर देश को तोडने के लिए नहीं, जोडने के लिए। बाबा आम्टे ने श्भारत जोड़ोश्च के उस अभियान को प्रारम्भ करते हुए इस देश के हर नागरिक को भारतीय होने का मंत्र दिया था। वे स्वयं को श्चेतना का सिपाहीश्च कहते थे। हर भारतीय की चेतना को जागृत–झंकृत करने का सपना दिखाया था उन्होंने। श्हम भारतीय हैंश्च से भी आगे बढ़कर श्हम मनुष्य हैंश्च की चेतना जगाने, उसे विकसित करने की राह दिखाई थी उन्होंने।

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई ही है कि आज जब देश आजादी के पिचहत्तरवें साल में प्रवेश कर रहा है, हमारी भारतीयता और मनुष्यता, दोनों, सवालिया निशानों के घेरे में है। धर्म व्यक्ति को मनुष्य बनाता है, पर हमने धर्म को राजनीति का हथियार बना लिया है। जाति मनुष्य के कर्म की पहचान होनी चाहिए, पर हम जाति के नाम पर राजनीतिक पहचान को मजबूत बनाने में लगे हैं। भाषा एक व्यक्ति को दूसरे से जोडने का माध्यम होती है, हम आज भाषा के नाम पर एक–दूसरे से अलग होने का काम कर रहे हैं। बड़ी त्रासदी यह है कि यह सब अनजाने में नहीं हो रहा, हम जानबूझकर यह कर रहे हैं। सोच–समझ कर, रणनीतियां बना कर राजनीति की शतरंज पर शह–मात का खेल खेला जा रहा है और इस प्रक्रिया में हम लगातार कमजोर हो रहे हैं। त्रासदी यह भी है कि हम इसके परिणामों की भयावहता को समझना भी नहीं चाहते।

इन परिस्थितियों में फिर एक बार देश में श्भारत जोड़ोश्च की बात कही जा रही है। इस बार यह बात प्रधानमंत्री ने कही है। श्मन की बात्त्य के अपने मासिक–कार्यक्रम में उन्होंने देश का आह्वान किया है कि वह आजादी के अमृत–महोत्सव वाले वर्ष में एक–दूसरे से जुडने का संकल्प है। यह बात सुन कर अच्छा लगा। जिस रचनात्मक काम की बात बाबा आम्टे ने की थी, वह भारतीयता का अहसास जगाने का काम था, मनुष्यता को सही अर्थों में समझने का काम था।

महात्मा गांधी ने जब श्भारत छोड़ोश्च का नारा दिया तो सारा देश जैसे जाग उठा था। यह सपना देखने का नहीं, सपने को पूरा करने का आह्वान था। और हमारा सपना पूरा हुआ। 15 अगस्त, 1947 को हमने अंग्रेजों को भारत छोडने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह की सफलता तभी मिलती है जब आह्वान में नैतिकता की आंच हो, आह्वान को सफल बनाने के लिए ईमानदार कोशिश हो। क्या आज, जब हम देश को जोडने की बात कर रहे हैं, क्या वह आंच और वह ईमानदारी हमारे में है? वर्ष 1947 में हमने जिस नियति से साक्षात्कार किया था, वह यही नियति थी जो आज 75 साल बाद हम देख रहे हैं?

प्रगति तो बहुत की है हमने इस दौरान, पर सवाल उस सपने को पूरा करने का है जो हमने अपने लिए देखा था। वह सपना एक ऐसे भारत का सपना था जो स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की मजबूत बुनियाद पर खड़ा हो। क्या हम उस बुनियाद को कमजोर बनाने में नहीं लगे हुए?

हम हिंदू या मुसलमान या सिख या पारसी तो तब भी थे, जब हम श्भारत छोड़ोश्च के नारे को साकार करने में लगे थे। पर तब हम पहले भारतीय थे, फिर कुछ और। आज हमारा नेतृत्व इस श्फिर कुछ औरश्च को प्राथमिकता देने की ओर धकेल रहा है। राजनीतिक दल जोडने की बात तो करते हैं, पर समाज को बांटने–तोडने में ही उनके स्वार्थ सधते हैं। आज हमारी राजनीति के कर्णधार समाज को धर्मों और जातियों में बांटने में विश्वास करने लगे हैं।

राजनीतिक रणनीति का आधार श्सोशल इंजीनियरिंगश्च बन गयी है, जिसका मतलब है धर्म और जाति के आधार पर मतदाताओं को देखना–समझना। उम्मीदवारों के चयन से पहले देखा यह जाता है कि वह किस धर्म का है, क्षेत्र में उसे जाति के आधार पर कितने वोट मिल सकते हैं। धर्म और जाति के नाम पर खुले आम वोट मांगते हैं हमारे नेता। इस बात को कैसे भूला जा सकता है कि देश का प्रधानमंत्री वेशभूषा के आधार पर लोगों को पहचानने की बात करते हैं, देश का गृहमंत्री धर्म–विशेष का नारा लगा कर अपनी चुनावी सभा की शुरुआत करता है। दुर्भाग्य यह भी है कि कोई भी दल धर्म के नाम पर राजनीति करने में संकोच नहीं करता। जीवन में आस्था का अपना महत्व है, पर जब राजनीतिक नफे–नुकसान की गणना करके आस्था का प्रदर्शन किया जाये तो नीयत में संदेह होना स्वाभाविक है।

सवाल नीयत का है। हमारे राजनेता जो कहते हैं, वह करते नहीं, और जो करते हैं उसे स्वीकारते नहीं। ऐसे राजनेता हर राजनीतिक दल में है। हर दल दूसरे पर उंगली उठा रहा है, पर यह याद रखना जरूरी नहीं समझता कि उसकी अपनी दो उंगलियां स्वयं उसकी ओर इशारा कर रही हैं। वह यह भी याद रखना जरूरी नहीं समझता कि कल उसने क्या कहा था। स्थान और स्थितियों को देखकर अपना चोला बदलने वाली राजनीति देश और समाज को तोड़ ही सकती है, जोड़ नहीं सकती।

आज देश को जोडने वाली सोच, जोडने वाली राजनीति चाहिए। पर हमारे राजनेता, जोडने वाली बात तो करते हैं, पर राजनीति तोडने वाली ही कर रहे हैं। कब्रिस्तान और श्मशान का नाम लेकर होने वाली राजनीति, जनगणना में धार्मिक संतुलन की बात करने वाले नेता और जाति के आधार पर वोट बांटने का गणित लगाने वाले चुनावी–रणनीतिकार देश को जोड़ते नहीं, तोड़ते हैं। सच तो यह है कि देश नारों से या मंत्रों से नहीं जुड़ता, देश के जोडने के लिए भारतीयता की पहचान को स्वीकारना होगा। समझना और कहना होगा कि मैं पहले भारतीय हूं।

भाजपा सरकार के विरोध में की नारेबाजी

भाटपाररानी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव कौशल त्रिपाठी की अगुवाई में केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रतसिया मोड़ से पैदल मार्च करते हुए तहसील परिसर पहुंचे। युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद यादव ने कहा की देश का हरवर्ग त्राहिमाम–त्राहिमाम कर रहा है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामजी गिरी, सोहन मिश्र, डा.सत्यनारायण शर्मा, जनार्दन कुशवाहा, सलीम अंसारी, जितेंद्र यादव, जनार्दन वर्मा, ऋषि प्रताप सिंह, पवन दुबे, रामप्रवेश यादव आदि मौजूद रहे।

परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराएं भूमि

देवरिया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने गूगल मीट के जरिए जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन पेयजल परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। एसडीएम भूमि उपलब्ध कराएं। समीक्षा में पता चला कि 27 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उन्होंने करमाजीतपुर, तरकुलवां, बर्दगोनिया, नगवा खास, बढया बुजुर्ग, बडका गांव, बखरा खास, दुलारपट्टी, एकला मिश्रौलिया, इंदूपुर, विशुनपुरा, बनकटा शिव, भीखमपुर आदि परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इस मौके पर सीआरओ अमृत लाल बिद, उप जिलाधिकारी सदर सौरभ सिंह, भाटपाररानी ध्रुव शुक्ला, सलेमपुर गुंजन द्विवेदी, बरहज संजीव कुमार यादव, रुद्रपुर संजीव उपाध्याय, अधिशासी अभियंता जल निगम प्रदीप चौरसिया आदि मौजूद रहे।

समय से पूरा कराएं अंश निर्धारण कार्य

देवरिया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने गूगल मीट के माध्यम से स्वामित्व योजना व खतौनी अंश निर्धारण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने 31 अगस्त तक हर हाल में कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। समीक्षा में पाया गया कि दो तहसीलों सदर व सलेमपुर में कार्य चल रहा है। जनपद के 212 गांव में अंश निर्धारण का कार्य संचालित है। सदर तहसील में 85 के सापेक्ष 12 गांवों का अंश निर्धारण कार्य पूरा किया जा चुका है। बरहज में तीन, भाटपाररानी में दो व सलेमपुर में 22 गांव का अंश निर्धारण पूरा हो चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए भूमि को चिह्नित करें। लोकेशन सही व आबादी के नजदीक रास्ते पर होना चाहिए। बैठक में सीआरओ अमृत लाल बिद, ज्वाइंट मजिस्ट्रेटध्एसडीएम सलेमपुर गुंजन द्विवेदी, सदर सौरभ सिंह, रुद्रपुर सजीव उपाध्याय, बरहज संजीव यादव, भाटपाररानी ध्रुव शुक्ला, तहसीलदार सलेमपुर रामाश्रय शामिल रहे।

मामा के घर आया बालक नदी में डूबा

महराजगंज। घुघली। स्वजन के साथ स्नान करने गया बालक सुबह नदी में डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बालक की तलाश कराने में जुटी है। नगर के वार्ड नंबर आठ निवासी शिव जायसवाल की पुत्री नंदनी, बेटे वेद और अपनी बहन की पुत्री संगिनी के साथ सुबह पांच बजे बैकुंठी घाट पर स्थित मंदिर में पूजा करने गई थी। पूजा के पूर्व वह नदी में स्नान करने नदी के तट की तरफ जा रही थी, उसी दौरान मासूम वेद दौड़ते हुए नदी तट पर पहुंच गया। उसको रोकने के लिए संगिनी पीछे दौड़ी तभी अचानक वेद पानी में चला गया। संगिनी उसे बचाने की प्रयास करने लगी, परंतु तेज धारा की चपेट में वेद नदी की गहराई में लापता हो गया। शोर सुनकर आसपास में मौजूद कुछ ग्रामीणों ने नदी में छलांग लगाई और खोजबीन करने लगे।

तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

महराजगंज । ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के राजाबारी स्थित लक्ष्मी ट्रेडर्स से चोरी हुए राशन के मामले में वांछित चल रहे आरोपित को सुबह गिरफ्तार जेल भेज दिया गया। जिसके पास से एक साइकिल, एक तमंचा व एक जिदा कारतूस बरामद हुआ। जिसकी पहचान गोलू उर्फ विजय चौहान ग्राम सभा राजाबारी टोला नौडिहवा थाना ठूठीबारी के रूप में हुई। सुबह गश्त के दौरान गोलू चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक तमंचा व एक जिदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपित 25 मार्च 2021 की रात राजाबारी स्थित गोदाम लक्ष्मी ट्रेडर्स से हुई राशन चोरी में आरोपित है।

गर्भवती किशोरी के साथ मां ने एसपी से लगाई गुहार

महराजगंज। फरवरी 2021 में नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर उसे साथ ले जाकर आरोपित ने दुष्कर्म किया। जब वह गर्भवती हो गई तो उसे दो दिन पहले चौराहे पर छोड़कर फरार हो गया। हद तो तब हो गई जब गर्भवती किशोरी को लेकर थाने पहुंची उसकी मां का पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया। किशोरी को लेकर उसकी मां ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि फरवरी महीने में उसकी नाबालिक बेटी को गांव का ही आरोपित बहला–फुसलाकर भगा ले गया था। उस समय भी पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब तीन दिन पहले आरोपित उनकी पुत्री को शिकारपुर चौराहे पर छोड़कर चला गया। पीड़िता जब घर पहुंची तो उसके गर्भवती होने की जानकारी हुई। इस मामले में सिदुरिया पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

अमृत महोत्सव पर विद्यालयों में भी हुआ विभिन्न आयोजन

महराजगंज। आजादी के अमृत महोत्सव पर जिले के कई विद्यालयों में भी रैली और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं को आयोजन किया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कालेज महराजगंज में एनसीसी कैडेट्स की रैली को अपर एसडीएम अविनाश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के बाद महराजगंज के आंदोलन में प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना और जनपद के विशुनपुर गबडुआ में हुए संघर्ष पर चर्चा हुई। इसके पूर्व विद्यालय में हुई निबंध, कहानी लेखन और काव्य पाठ प्रतियोगिता में मेधावियों को सम्मानित भी किया गया। निबंध प्रतियोगिता में कुमारी वंशिका यादव प्रथम, अगर वर्मा द्वितीय व कुमारी अंकिता सिंह तीसरे स्थान पर रही। इसी क्रम में कहानी लेखन में तृप्ति मिश्रा प्रथम, अनीता प्रजापति द्वितीय व गुड़िया शर्मा तृतीय रहीं। काव्य पाठ में तृप्ति मिश्रा प्रथम व हरिओम मद्धेशिया दूसरे स्थान पर रहे।

ग्रामीण क्षेत्र में 10280 लोगों को लगाया गया कोरोनारोधी टीका

देवरिया। जिले में .ग्रामीण क्षेत्र के 65 टीकाकरण केंद्रों पर 10280 लोगों को कोरोनारोधी टीका लगाया गया। कोरोनारोधी टीका हर व्यक्ति लगवाना चाह रहा है लेकिन मौजूदा समय में टीका की किल्लत से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महानगर व विदेश जाने वाले लोगों को फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को टीका अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ गई है। स्लाट बुकिग के कारण अधिकांश लोग टीका से वंचित रह जा रहे हैं। जिला अस्पताल में पूरा दिन लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे लेकिन टीकाकरण कार्य ठप होने के कारण उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। बार–बार केंद्र से लौटने पर लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। एक हेल्थ केयर वर्कर व एक फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोनारोधी टीके की दूसरी डोज दी गई। जिले में कुल 10490 लोगों को कोरोनारोधी टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। 18 वर्ष से 45 वर्ष तक 5977 लोगों को प्रथम डोज व 471 को द्वितीय डोज दिया गया। 45 से 60 वर्ष के लोगों में 1539 को प्रथम व 938 को द्वितीय डोज दिया गया। 60 वर्ष से उपर 691 को प्रथम व 662 को द्वितीय डोज दिया गया।

टीकाकरण कार्य बंद रहने से परेशान रहे लोगः देवरिया। कोरोनारोधी टीकाकरण कार्य दो दिन के लिए ठप है। मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य डा. एएम वर्मा की सूचना को अस्पताल में चस्पा भी किया गया लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से अधिकांश विदेश जाने वाले लोग पूरा दिन जिला अस्पताल पहुंचे और मायूस होकर वापस लौटे।

निजी विद्यालय के शिक्षक व कर्मियों ने चाय बेचकर जताया विरोध

देवरिया। जूनियर शिक्षण प्रबंधक संघ के बैनर तले निजी विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों ने सुभाष चौक पर चाय बेचकर विरोध जताया। मांगें जल्द पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की शिक्षकों ने चेतावनी दी। मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक उप जिलाधिकारी सौरभ सिंह को सौंपा। जिलाध्यक्ष संगीता सिंह ने कहा कि कोरोना काल से निजी विद्यालय बंद हैं। निजी विद्यालय के शिक्षक व प्रबंधकों के सामने भुखमरी का संकट उत्पन्न हो गया है। छह माह से मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि व राजनीतिक संगठनों के लोगों को पत्रक दिया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद गंभीरता से नहीं लिया है। शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम विद्यालय है, लेकिन सरकार विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। शिक्षण कार्य न होने से छात्र–छात्राओं के मानसिक विकास व शैक्षिक विकास अवरुद्ध होता जा रहा है। उच्च संस्थानों में शिक्षण कार्य कराने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन बेसिक व जूनियर स्तर के शैक्षिक संस्थानों को आज भी अनुमति नहीं दी जा रही है। जिला उपाध्यक्ष युवराज प्रताप सिंह ने कहा कि कोरोना प्रोटोकाल के तहत ही निजी विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी जाए। जिस तरह से नौ से इंटर तक की कक्षाओं के लिए विद्यालय खोलने की अनुमति मिली है। उसी मापदंड के तहत हमें भी अनुमति दी जाए। इस दौरान जिला महामंत्री प्रमोद कुमार विश्वकर्मा, श्रीराम यादव, चंदन गुप्त, सूरज प्रसाद, दीपक मौर्या, अभिषेक तिवारी, पार्थ सिंह, आसमा फारुखी, सुमन तिवारी, विष्णु अग्रवाल, अभिषेक शाही, अखिलेश पांडेय, मनीष आनंद मिश्र, अवधेश कुशवाहा मौजूद रहे।

प्रेम व सौहार्द के साथ मनाएं त्योहार : जिलाधिकारी

महराजगंज। जिलाधिकारी डा. उज्ज्वल कुमार की अध्यक्षता में मुहर्रम त्योहार और सावन मास के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि मुहर्रम सहित अन्य त्योहार हमें प्रेम व सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। त्योहार मनाते वक्त भी कोविड गाइडलाइन का पालन करें, ताकि स्वयं के साथ दूसरों को सुरक्षित रख सकें। बैठक की शुरूआत में जिलाधिकारी ने सबसे पहले बकरीद में शासन के निर्देशों के पालन के लिए सभी समुदायों को बधाई दी। उन्होंने सभी एसडीएम और क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संयुक्त रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर लें। इंटरनेट मीडिया और युवा वर्ग पर अधिकारी और प्रबुद्ध नागरिक सभी विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि भारत मिश्रित संस्कृति वाला देश है, जहां सभी समुदाय को एक–दूसरे की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस संस्कृति के लिए त्योहारों के दौरान भाईचारा का परिचय दें। कोविड गाइडलाइन का पालन करना भी न भूलें। बैठक को पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने–अपने क्षेत्रों में गश्त जारी रखेंगे। सभी लोग शासन के निर्देशों का पालन करें और कोई भी ऐसा कार्य न करें, जिससे शांति–व्यवस्था में बाधा पैदा हो। बैठक को एडीएम कुंज बिहारी अग्रवाल, एएसपी निवेश कटियार और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साई तेजा सीलम ने संबोधित करते हुए सभी से नियमों के पालन, आपसी सौहार्द को बनाये रखने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का आग्रह किया। बैठक में उपस्थित हिदू–मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों भी अपना पक्ष रखा और सुझाव दिया। पीस कमेटी का संचालन शमशुल होदा ने किया।

बदल रहा मौसम, अस्पताल में बढ़े मरीज

महराजगंज। तराई का मौसम बदल रहा है। कभी धूप तो कभी बदली लोगों के परेशानी का सबब बना हुआ है। उमस भरी गर्मी से बीमारियों ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मौसम के इस उतार–चढ़ाव के कारण जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जांच में ज्यादातर मरीजों को वायरल फीवर की पुष्टि हो रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने से व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। जिला अस्पताल में वर्तमान में प्रत्येक दिन 500 से 700 मरीज मरीज विभिन्न रोगों से ग्रसित आ रहे हैं। जबकि प्राइवेट अस्पतालों पर भी काफी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल में पर्ची काउंटर पर गर्मी के मौसम में मरीज व तीमारदार की लंबी लाइन लग रही है। इसमें बच्चे और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या अधिक है। लोग जुकाम, बुखार, खांसी, मलेरिया, डायरिया, एलर्जी के शिकार हो रहे हैं। बुजुर्गों में सांस फूलने और शुगर की भी समस्या सामने आई। जिला अस्पताल में डा. प्रमोद कुमार, डा. उर्वशी राय, राजीव यादव, डा. रमन सहित अन्य चिकित्सकों तथा एआरटी सेंटर पर डा. केवी त्रिपाठी के पास मरीजों की कतार लग रही है। मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि के कारण इमरजेंसी वार्ड में बेड कम पड़ जा रहे हैं। ड्रीप चढ़ाने के लिए स्टैंड का अभाव सामने आ रहा है, जिसके कारण तीमारदार ग्लूकोज की बोतल हाथ में लेकर ही स्टैंड का काम कर रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड के अलावा बाहर बरामदे और गलियारे में भी मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। इस दौरान किसी को बाहर से दवा लिखी गई, तो किसी को अस्पताल से ही दवा उपलब्ध कराई गई है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,ग्रामीण अभियन्त्रण,परिमण्डल–बस्ती

पता–मुडघाट रोड कटरा रोजगार कार्यालय के समाने बस्ती
ई–प्रोक्योरेमेन्ट निविदा सूचना अल्पकालिक निविदा सूचना

पत्रांक–451 / ग्रा0अ0वि0 / निविदा पत्रावली / अनु0सहा0 / 21–22 दिनांक 24.07.2021

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परिमंडल बस्ती के द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश में कार्य की लागत के सीमा के अनुरूप पंजीकृत निविदा दाता से ई–टेंडरिंग के माध्यम से प्रतिशत दर के आधार पर नीचे दर्शाए गए कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है निविदादाता किसी एक कार्य अथवा सभी कार्यों के लिए निविदा दे सकता है।
कार्य से संबंधित विवरण निम्नवत् हैं–

क्र0 स0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	बिड सिक्योरिटी (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य जीएसटी सहित (रू0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु सहित)	श्रेणी
1-	2-	3	4	5	6	7	8
1.	सिद्धार्थनगर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तगर्त विकास खण्ड–बांसी में मल्टीपरप सीड स्टोर एण्ड टेक्नालाजी डिसैमिनेशन सेन्टर का निर्माण कार्य।	65.69	1.31	(300+2000+414= Rs 2714.00)	10 माह	ABC
2.		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तगर्त विकास खण्ड–मिBoy में मल्टीपरप सीड स्टोर एण्ड टेक्नालाजी डिसैमिनेशन सेन्टर का निर्माण कार्य।	65.69	1.31	(300+2000+414= Rs 2714.00)	10 माह	ABC
3		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तगर्त विकास खण्ड–खेसरहा में मल्टीपरप सीड स्टोर एण्ड टेक्नालाजी डिसैमिनेशन सेन्टर का निर्माण कार्य।	65.69	1.31	(300+2000+414= Rs 2714.00)	10 माह	ABC
4		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तगर्त विकास खण्ड–डुमरियागजं में मल्टीपरप सीड स्टोर एण्ड टेक्नालाजी डिसैमिनेशन सेन्टर का निर्माण कार्य।	65.69	1.31	(300+2000+414= Rs 2714.00)	10 माह	ABC

1. वेबसाइट पर बिड डॉक्यूमेंट की उपलब्धता की तिथि 08.08.2021 से 16.8.2021
2. ई–निविदा के माध्यम से निविदा प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि / समय–16.08.2021 को दोपहर को 12.00 बजे तक।
3. ई–निविदा के माध्यम से निविदा खोलने की तिथि एवं समय–16.08.2021 को अपराह्न 3.00बजे।
4. निविदादाता आमंत्रणकर्ता को आई टी वी के क्लास–10 के अनुसार परिशिष्ट / शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। सभी संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वह नियमित रूप से ही निविदा पोर्टल पर निगरानी रखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया ई टेंडर यूपी वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर लॉगिन करें तथा बिड डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें।

www.upgov.nic.in
upid-r.o.166048
date : 4-08-2021

(इंजीनियर सिराजुद्दीन अहमद खान)
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परिमंडल बस्ती
महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से

दो बाइक की भिड़ंत में महिला की मौत, पति घायल

महराजगंज । नौतनवा ठूठीबारी मार्ग पर पड़ियाताल के समीप दोपहर दो बाइक के आमने–सामने टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची बरगदवा पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया है। जबकि हादसे को अंजाम देने वाला बाइक सवाल मौके से भाग गया। बरगदवा थाना क्षेत्र के बेलहिया गांव निवासी कलावती अपने पति राजाराम के साथ ठूठीबारी स्थित डाकघर में बाइक से किसी काम के लिए जा रही थी। अभी नौतनवा ठूठीबारी मार्ग के पड़ियाताल के समीप पहुंची ही थी कि विपरीत दिशा से आ रहे बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कलावती देवी की मौके पर ही मौत हो गई तथा पति राजाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला की मौत के बाद चालक बाइक छोड़ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल को बरगदवा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। थानाध्यक्ष बरगदवा अजीत कुमार ने बताया कि बाइक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

सांसद राजेश वर्मा ने वितरित किया निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

सीतापुर। पी.एम. के सपनो को साकार करने में जी जान से जुटे सांसद राजेश वर्मा ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत शहर के आवास विकास कालोनी की उचित दर विक्रेता ऊषा सिंह की दुकान पर पहुंचे। यहां पर मौजूद लाभार्थियों को सांसद एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण संसदीय समिति के चेयरमैन दर्जाप्राप्त राज्यमंत्री राजेश वर्मा ने निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया। इस मौके पर श्री वर्मा ने उपस्थित लोगो को सम्बोधित करते हुये कहा कि पीएम की महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की गयी है जिससे गरीब परिवारो को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर जिला संयोजक भाजपा राजेश शुक्ला, महेश शर्मा आदि मौजूद थे। उधर भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने आवारा पशुओं की सुरक्षा हेतु श्कान्हा उपवन्य का कल नारियल फोडने के बाद फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर आवारा घूम रहे पशुओं को लेकर कान्हा उपवन में सुरक्षित रखा गया। इसी कड़ी में कल शहर के सदर बाजार इलाके के कोविड वैक्सीनेशन सेन्टर का निरीक्षण सांसद राजेश वर्मा ने किया। इस मौके पर मौजूद लोगो से टीकाकरण को लेकर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी हासिल की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा आदि भी मौजूद थे।

हैसियत 70 करोड़ की दे दिया लोन 7000 करोड़ रुपये का

अनूप त्रिपाठी/
दैनिक बुद्ध का संदेश

कानपुर। कानपुर में जहाँ बैंक से आम आदमी को लोन लेने के हजारों पापड़ बेलने पड़ते हैं लेकिन शायद ही किसी को बिना सेटिंग्स या कमीशन दिये लोन नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर विक्रम कोठारी और उदय देसाई के मामलों की तरह बैंकों ने श्री लक्ष्मी कॉटसिन के मालिक एमपी अग्रवाल को भी जनता की जमा पूंजी लूटने की खूब छूट दी। हद देखिए एमपी अग्रवाल की कंपनी को उसकी हैसियत से सौ गुना अधिक लोन दिया गया। बैंक अफसरों ने यह भी नहीं सोचा कि रकम डूबी तो इसकी वसूली कैसे होगी। आखिरकार वही हुआ। बैंकों ने रकम वसूलकर पाने से हाथ खड़े कर दिए हैं।

संपत्तियों की बिक्री की दशा में बैंकों को 70 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हाथ नहीं लगेगी। सीबीआई ने जांच में इन बिंदुओं को भी शामिल किया है कि आखिर बंधक संपत्ति के एवज में बैंकों ने सौ गुना अधिक रकम क्यों दी। जब लोन दिया गया तो उस कार्यकाल में कौन सीएमडी था। क्या ये बात सीएमडी को पता थी? सीबीआई ने बैंक अफसरों से पूछताछ के लिए सवालों की सूची तैयार की है। माना जा रहा है कि इस प्रकरण में कई बड़े बैंक अफसर फंसेंगे। बैंकों के सूत्र बताते हैं कि आमतौर पर इस तरह के मामलों में शाखा प्रबंधकों पर गाज गिरा दी जाती है लेकिन यह मामला सीधे दिल्ली से जुड़ा है। बैंक के शीर्ष अफसरों की अनुमति के बगैर इतने बड़े लोन पास नहीं होते। माना जा रहा है कि कारोबारी को इतना बड़ा डिफाल्टर बनवाने में बैंक अफसरों की भी भूमिका है। इतना बड़ा लोन दिलवाने में बड़े कमीशन की भी चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। इन जैसे मामलों में सरकार को सख्त कानून बनाने की जरूरत है और इन बड़े लोन डिफॉल्टरों के समय कौन से बैंक अफसर थे जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से लोन पास करने के साथ उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिये।

भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च के तहत कांग्रेसियों ने घोरावल में निकाली पदयात्रा

दैनिक बुद्ध का संदेश

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिवध्प्रभारी सोनभद्र राजन दुबे जी के नेतृत्व में ब्लॉक अध्यक्ष लल्लू पांडे व कर्मा ब्लॉक अध्यक्ष बंशीधर पांडे के अध्यक्षता में घोरावल पेट्रोल पंप से बिसरेखी तक करीब 5 किलोमीटर की श्भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च कांग्रेसियों ने निकाला। जिसमें नेतृत्व कर रहे प्रभारी सोनभद्र राजन दुबे जी ने कहा कि जब से जब प्रदेश व केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार आई है लगातार किसान, नौजवान, महिला, दलित, आदिवासी ,आम जनमानस सब परेशान है ,महंगाई चरम सीमा पर है ,दैनिक जीविका की चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि वह आम जनमानस के पहुंच के बाहर हो चुकी हैं इसी को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस ने आजादी के समय में अंग्रेजों भारत छोड़ो क्रांति दिवस 9 अगस्त को चलाया था और देश को आजाद करा कर ही दम लिया ,उसी प्रकार से 9–10 अगस्त के दिन भाजपा गद्दी छोड़ो का कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवध्प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी के आवाहन पर पूरे प्रदेश में श्भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसी को लेकर आज घोरावल विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा हैं। कार्यक्रम के प्रभारी रहे जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव बद्री सिंह गौड़ कहा कि यह सरकार दलितध्आदिवासी विरोधी भी है लगातार उनका शोषण किया जा रहा है जिसको आगे होने वाले चुनाव में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा । जिला उपाध्यक्ष विनोद तिवारी जी ने कहा कि लगातार आम जनमानस की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेश कर रही है यह सरकार लगातार अपने ताने तानाशाही रवैया से बाज नहीं आ रही है और

लोगों का शोषण किया जा रहा है। युवा कांग्रेस के पूर्व– जिला अध्यक्ष आशुतोष कुमार दुबे (आशु) ने कहा कि यह सरकार युवाओं का सबसे बड़ा शोषण की है और इनकी सरकार में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हुआ है जो दर–2 की ठोकरें खाने को विवश है कहा भी गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है लेकिन सरकार जवानी को और जमाने दोनों को पीछे करने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम का संचालन सेवादल के अध्यक्ष कौसलेश पाठक ने किया। मुख्य रूप से उपस्थित रहने वालों में पूर्व– कार्यकारी अध्यक्ष नामवर कुशवाहा,उषा चौबे, श्रीकांत मिश्रा,विमला मौर्या,शैलेंद्र चतुर्वेदी, कौशल किशोर मिश्रा, सीता राम, मनोज मिश्रा ,चंद्र बहादुर सिंह, राजबली पांडे जी, कांता प्रसाद यादव, मृदुल मिश्रा, इन्द्रजीत शुक्ला, अंशु मद्धेशिया, उमेश मौर्य, रमाशंकर भारती, मुराद अली, पंकज मिश्र,राहुल सिंह, राजरूप शुक्ला, वंदना चौहान, मौजूद रहे ।

मुक्केबाज अपराजिता मणि को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित

दैनिक बुद्ध का संदेश

हाटा/कुशीनगर। सेलिब्रेशन लॉन स्थित संचालित आर. के. बॉक्सिंग क्लब हाटा कुशीनगर के सीनियर महिला मुक्केबाज अपराजिता मणि पुत्री भुनेश्वर मणि (पटनी) प्रतिष्ठित खेल खेलो इंडिया दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया 2020 भुवनेश्वर (उड़ीसा) में 57 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक अर्जित किया। इनके उपलब्धि पर तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 13 अगस्त 2021 को नाग पंचमी के दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में सम्मानित किया जाना सुनिश्चित है। इनके उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सी.पी. एस. तेवतिया व महासचिव अनिल कुमार मिश्र कोषाध्यक्ष हसन रजा जैदी विधायक पवन केडिया, उपजिलाधिकारी हाटा प्रमोद कुमार तिवारी, नगरपालिका अध्यक्ष मोहन वर्मा आर.के. बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष डॉ वी.के सिंह उपाध्यक्ष शादाब खान (सेलिब्रेशन लॉन) कोषाध्यक्ष विनोद जायसवाल आर.के. बॉक्सिंग क्लब के कोच व सचिव राजेश कुमार गुप्ता सीनियर मुक्केबाज राहुल कुमार गुप्ता महमूद खान सभासद पुत्र टीपू खघं रिजवान अहमद आदि लोगों ने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इनकी उज्जवल भविष्य की कामना की।

छह वर्ष से लापता युवक को एसओ कपिल दुबे ने ढूंढ निकाला

दैनिक बुद्ध का संदेश

कानपुर। देहात में छह वर्ष पूर्व जो युवक लापता हो गया था तो उसके परिवार ने दुनिया में होने की उम्मीद छोड़ दी थी। मंगलवार को जब सट्टी पुलिस ने उसे खोजकर परिवार से मिलाया तो खुशी से आंखें नम हो गईं। थाने से फूल माला पहनाकर उसे घर के लिए रवाना किया गया। इटावा के इकदिल के मनियामऊ गांव निवासी श्यामचंद्र पाल का पुत्र लव पाल गुजरात में नौकरी करता था। छह वर्ष पूर्व वह घर आए थे और उस समय मानसिक रूप से थोड़ा बीमार चल रहे थे। वह रात में टहलने निकले और इसके बाद लापता हो गए। परिवार वालों ने हर जतन किया और महीनों तक खोजबीन करते रहे पर कुछ पता नहीं चल सका। पत्नी प्रीति व दो बच्चों का हाल बुरा था। बच्चों को तो पिता की सूरत ही याद नहीं थी। इधर बीच सट्टी एसओ कपिल दुबे को वाट्सएप पर एक फोटो मिली जो लव पाल का था और उसे लापता बताया गया था। यह फोटो लव के दोस्तों ने बहुत पहले वायरल की थी जो किसी ग्रुप पर चल रही थी। एसओ को लव के शक्ल का व्यक्ति क्षेत्र की एक दुकान पर काम करता हुआ नजर आया। इस पर उन्होंने उससे घर का पता पूछा तो वह बता नहीं सका। लेकिन एक दोस्त का नाम व पता उसे याद था। जब उसके दोस्त को बुलाया गया तो खुशी का ठिकाना न रहा कि उसका लापता दोस्त मिल गया है। इधर पत्नी प्रीति व स्वजन भी पहुंचे और सामने लव को देखकर गले मिलकर रोने लगे। पुलिस कर्मियों ने लव को फूलमाला पहनाई और हंसी खुशी परिवार संग विदा किया। एसओ कपिल दुबे ने बताया कि परिवार निराश था और कई बार मन में ख्याल भी आता था कि पता नहीं लव पाल दुनिया में है भी या नहीं। परिवार से मिलकर युवक बेहद खुश है।

पुलिस डायरी............

थाना कपिलवस्तु पुलिस ने 01अभियुक्त को किया गिरफ्तार

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सिद्धार्थनगर । डॉ. यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष कपिलवस्तु श्री महेश सिंह के नेतृत्व में कल दिनांक 09.08.2021 को 20 शीशी नेपाली शराब नाजायज के साथ समय करीब 19 .30 बजे वहद ग्राम गौरी के पास से गिरफ्तार किया गया । फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

थाना ढेबरूआ पुलिस ने 05 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सिद्धार्थनगर। अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना ढेबरूआ पुलिस टीम द्वारा कृत कार्यवाही ।को थाना ढेबरूआ टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र मे शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 05 व्यक्ति को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151ध107ध116 सीआरपीसी मे माननीय न्यायालय ६ जेल भेजा गया ।

यातायात पुलिस ने वसूले 2,84,500/-शमन शुल्क

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सिद्धार्थनगर। यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्राटा भरने वाले वाहनोंध्व्यक्तियों का ई–चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारीध्प्रभारी यातायात पुलिसध्प्रभारी निरीक्षकध्थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में मंगलवार को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0 वी0 एक्ट के अंतर्गत 1185 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 165 वाहनों का चालान व दो वाहनों को सीज कर रू0 2,84,500ध–शमन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना खेसरहा पुलिस ने 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सिद्धार्थनगर। अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को शांति व्यवस्था के दृष्टिगत 02 अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

क्षेत्राधिकारी बाँसी ने सुना पेंसेनर्स की समस्या

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सिद्धार्थनगर। डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में और सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में अरुण चन्द, क्षेत्राधिकारी बाँसी द्वारा थाना जोगिया उदयपुर पहुँचकर पुलिस पेंशनर्स से मुलाकात की गई और कुशल क्षेम पूछा गया तथा उन्हें साइबर क्राइम के बारे में अवगत कराते हुए ऐसे अपराधों से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया तथा विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक जोगिया उदयपुर द्वारा भी अपना दुरभाष नम्बर देते हुए आश्वस्त किया गया कि कभी भी कोई समस्या हो तो व्यक्तिगत रूप से अवश्य अवगत कराएं।

थाना मोहना पुलिस ने अभियुक्तको किया गिरफ्तार

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सिद्धार्थनगर। शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 नफर अभियुक्त को धारा 15/107/116 सीआरपीसी के तहत मोहाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा न्यायालय ।मंगलवार को अपराध एंव अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के शांति व्यवस्था भंग कर रहे 01 नफर अभियुक्त को धारा 151,107,116 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया

थाना लोटन पुलिस ने 01 अभियुक्तको किया गिरफ्तार

दैनिक बुद्ध का सन्देश

सिद्धार्थनगर। थाना लोटन ने 01 अभियुक्त मय साइकिल व 2 बोरी यूरिया को धारा 11 कस्टम अधिनियम में गिरफ्तार कर कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया । प्रभारी थाना लोटन उपनिरीक्षक राम अशोक यादव ने संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 11 कस्टम अधिनियम की कार्यवाही के अन्तर्गत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल।

विधायक ने पंचायत भवन की रखी आधारशिला, किया भूमि पूजन

दैनिक बुद्ध का सन्देश

मधवलिया। विकास खंड मोतीचक के ग्राम सभा मधवलिया में

क्षेत्रीय विधायक पवन केडिया ने पंचायत भवन के नव निर्माण हेतु विधिवत पूजन के साथ भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। इस मौके पर उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए विधायक ने कहा कि विधानसभा के अन्दर जो भी विकास हो रहा है वह आप जनता जनार्दन की देन है आपने केन्द्र मे मोदी व प्रदेश में योगी की सरकार बनायी है जिससे हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहा है। जिसके क्रम में मधवलिया से मछरगावा सड़क का नव निर्माण कार्य लगभग 25 लाख की लागत से अक्टूबर से पिच निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है गांव के सभी जर्जर पोल व तार बदलने जा रहा है। विधायक ने गांव में भ्रमण कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया एवं जनता की समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर ग्राम प्रधान रामनरेश प्रसाद, सुशील पाण्डेय, कुलदीप टाइगर, सुरेन्द्र सिंह, जय सिंह, हरिन्द्र राव, रजनीश बर्नवाल, संजय मद्धेशिया, मुंशी सिंह, अरूण पाण्डेय, आनन्द वर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे।

संकट के दौर में जरूरतमंदों के साथ खड़ी है बुन्देलखण्ड रक्तदान समिति

दैनिक बुद्ध का संदेश

हमीरपुर। पंधरी निवासी संगीता देवी पुत्री जगदीश को बीमारी के चलते जिला अस्पताल हमीरपुर मे भर्ती कराया गया था। बालिका की जांच होने के बाद खून की कमी निकली तब डॉक्टरों ने खून चढवाने के लिये कहा ।खून के लिये पीडित के पिता ब्लड बैंक गये जहां ठ पॉजिटिव ग्रुप का खून न होने की बात कही गयी जिस पर निराष पिता मायूस हो गये जिसकी सूचना बुंदेलखंड रक्तदान समिति को मिली तब समिति ने पीडिता का हाल चाल जाना व खून का प्रबंध कराने मे लग गयी समिति ने सदस्यों से संपर्क किया जिस पर सुमेरपुर निवासी समिति सदस्य हेमू गुप्ता ने फोन कर खून देने को कहा व सुमेरपुर से जिला अस्पताल हमीरपुर पहुंचकर पीडिता के लिये 1 यूनिट ठ पॉजिटिव ब्लड डोनेट किया व पीडिता को नया जीवन दिया। समिति रक्तवीर योद्धा का दिल से आभार व्यक्त करती है। मौके पर उपस्थित रहे समिति सहयोगी–प्रीति अशोक निषाद,अंकुर पाण्डेय, दीक्षा सिंह,पवन गुप्ता।

मुख्यमंत्री के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले,भेजे गए जेल

दैनिक बुद्ध का सन्देश

गोरखपुर। जिले के गगहा इलाके में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में जेल भेजे गए दोनों युवक का संबंध भीम आर्मी से हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में यह तथ्य सामने आया था। जानकारी के मुताबिक, गोला के छोटू उर्फ समीर कुमार और श्रवण कुमार को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पुलिस ने वीडियो की मदद जांच की तो पता चला है कि कार्यकर्ता भीम आर्मी से जुड़े हैं। उनका सपा से कोई लेना नहीं है। इससे पहले एसएसपी की ओर से बताया गया था कि सपा की साइकिल रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने वीडियो वायरल किया गया था। हालांकि जांच के बाद सच्चाई कुछ और निकली है। दरअसल, गोला में सेक्रेटरी अनीश की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने आए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ आए कुछ युवाओं ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था। सपा के मीडिया प्रभारी राघवेंद्र तिवारी राजू ने बताया कि गिरफ्तार दोनों लोगों का सपा से कोई लेना देना नहीं है।

'आर्यावर्त बैंक करमा के बैंक मित्र बचाऊ को कार्यभार से किया गया पद मुक्त'

दैनिक बुद्ध का सन्देश

करमा, ध्सोनभद्र ।आर्यावर्त बैंक करमा के प्रबंधक नदीम इस्लाम खान ने बताया कि बचाऊ आर्यव्रत बैंक करमा में कई सालों से बैंक मित्र के पद पर रह कर बैंकों का कार्य कर रहा था लेकिन विगत कुछ महीनों से बैंक लक्ष्यों के प्रति व कार्यों के प्रति बेहद उदासीन व्यवहार देखा गया। जिसके सापेक्ष में कई बार मौखिक तौर पर चेतावनी दी गई और साथ ही पत्र जारी कर सचेत किया गया परंतु बैंक लक्ष्यों के प्रति बचाऊ को स्वयं में कोई सुधार नहीं हुआ ।उक्त कार्यप्रणाली को देखते हुए कंपनीध्बैंक ने बचाऊ को तत्काल कार्य प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाने का निर्णय लिया है। इसलिए आर्यावर्त बैंक कर्मा के खाताधारक को सूचित किया जाता है कि आप लोग बचाऊ से बैंक से संबंधित कोई भी लेन देन ना करें

पंचायत भवन पांपी में पीस कमेटी की बैठक सम्पन्न

दैनिक बुद्ध का सन्देश

करमा, ध्सोनभद्र। स्थानीय थाना क्षेत्र पांपी ग्राम पंचायत भवन पर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह के अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई जिसमें शान्ति ब्यवस्था कायम रखने के लिए प्रेरित किया गया ।श्री सिंह ने उपस्थित लोगों से कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर 10 लोगों की निगरानी समिति बनाये जो चारो गांवों से 2–3के संख्या में लोगों को रखें ।गाँव घर के छोटे छोटे मामलों को आपस में मिल बैठ कर हल करने का प्रयास करें ।जमीन सम्बन्धित मामलों पर विवाद कत्तई ना करें ।एसके लिए राजस्व विभाग है ।उससे कहे लेखपाल, कानूनगो, तहसील दार इस मामले को हल करेगा ।आवांछित तत्वो पर निगरानी के लोगों के द्वारा ध्यान दिया जाय ।ऐसे संदिग्ध लोगों की सूचना बिना भय को थाने पर दी जाय। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में पुलिस का सहयोग करें ।1090 की विस्तृत जानकारी देते हुए कहे कि बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें ।इसके लिए जागरूक करने का प्रयास करें ।विद्यालय खुल गए हैं ।विद्यालयों में भी हम जाकर छात्राओं को जागरूक करेंगे ।मनचलों पर लगाम लगाने के लिए ही यह नम्बर बनाया गया है ताकि बेरोकटोक बहन बेटियाँ घरों से निकल सकें ।शान्ति ब्यवस्था को बिगाड़ने वालों की खैर नहीं इस मौके पर प्रधान नागेन्द्र मौर्य पंचायत मित्र मेराज अहमद शैलेंद्र मौर्य बचाऊ मौर्य आदि लोग उपस्थित रहें

सभी बैंक शाखाओं में लोन मेला आयोजित किया जायेंगा

बस्ती। 11 एवं 12 अगस्त को विभिन्न योजनाओं में ऋण स्वीकृत करने तथा वितरण करने के लिए जिले की सभी बैंक शाखाओं में लोन मेला आयोजित किया जायेंगा। जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने सभी बैंक के जिला समन्वयक तथा विभागीय अधिकारियों को विशेष प्रयास करके ऋण स्वीकृत एवं वितरण कराने का निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित तैयारी बैठक में उन्होने कहा कि इस महा लोन मेला में 100 करोड़ ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होने कहा कि जिला मुख्यालय पर स्वास्तिक होटल में नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले सभी बैंक का लोन मेला एक स्थान पर आयोजित किया जायेंगा। इस लोन मेला से जिले में सीडी रेशियों बढाने में मदद मिलेगी। उन्होने कहा कि ऋण की स्वीकृति एंव वितरण का कार्य दिसम्बर तक पूरा करने के संबंध में महानिदेशक संस्थागत वित्त एंव बीमा, उ0प्र0 ने निर्देशित किया है। इस परिपेक्ष्य में प्रत्येक माह लोन मेला आयोजित करके सभी बैंक लक्ष्य पूरा करें। उन्होने कहा कि पीएम स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं आयोग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना तथा मुख्यमत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना के साथ–साथ किसान क्रेडिट कार्ड बनाने, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहो को ऋण देने तथा सीसीएल स्वीकृत करने 11 एवं 12 अगस्त को लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। उन्होने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरी तैयारी के साथ लाभार्थियों को बैंक शाखा तक ले जाये। उनके ऋण आवेदन पत्रों में पायी गयी कमियों को दूर कराये तथा 11 अगस्त को अधिकतम प्रार्थना पत्र स्वीकृत करायें।

स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन यहां साक्षात शिव के रूप में होते हैं

ऐतिहासिक सिद्घेश्वर महादेव मंदिर की महिमा अपरंपार

सिधौली (सीतापुर)। सिधौली कस्बा स्थित ऐतिहासिक सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की महिमा अपरंपार है स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन यहां साक्षात शिव के रूप में होते हैं और भगवान शिव भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं इस मंदिर में राजा मांधाता व विक्रमादित्य ने भी भगवान शिव का पूजन अर्चन किया था। सिद्धेश्वर भगवान महादेव मंदिर की पौराणिकता के बारे में स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता। लेकिन लगभग साढ़े तीन सौ वर्ष मंदिर के पुराने होने के साक्ष्य स्पष्ट रूप से मंदिर में मौजूद हैं। भक्तों का कहना है कि यहां पर भगवान शिव स्वयंभू है साक्षात शिवलिंग के रूप में यहां पर अपने दर्शन देते हैं। मंदिर की पौराणिकता के बारे में पूछने पर कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बता सका कि मंदिर का शिवलिंग कितना पुराना है कुछ लोगों का मानना है की महाभारत काल से इस शिवलिंग यहां पर मौजूद है और राजा मांधाता व विक्रमादित्य ने भी यहां पर पूजन अर्चन किया था। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि यहां पर कभी भीषण जंगल हुआ करता था और लोग चरवाहे अपने पशु चरवाने यहां पर आया करते थे। मंदिर के पुजारी पंडित राम शंकर गिरी बताते हैं की कहा जाता है की जंगल में एक चरवाहा घास काट रहा था। इसी दौरान उसकी खुरपी में खून लग गया। जिससे चरवाहा काफी डर गया और वह अपने घर को भाग गया। रात में ही भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसे बताया कि तुमने मेरे शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया है अगले दिन चरवाहा जब उसी स्थान पर पहुंचा और वहां की सफ ाई की तो उसे शिवलिंग दिखाई दिया। वहीं पर चरवाहा ने कुछ ईटों से छोटा सा स्थान स्थापित किया और भगवान शिव की पूजा करने लगा। धीरे.धीरे मंदिर की शिवलिंग की ख्याति बढने लगी और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। बताते हैं लगभग साढ़े तीन सौ वर्ष पूर्व संवन्त 2018 इश्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ और उसके उपरांत लगातार मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। आज के समय में श्री सिद्धेश्वर राधा कृष्ण सेवा समिति द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य जन सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है और मन्दिर को लगातार भव्य बनाया जा रहा है। मन्दिर समिति के अध्यक्ष अनिल मिश्र कहते है कि सावन माह में भगवान सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की महिमा और बढ़ जाती है। हजारों की संख्या में प्रत्येक शिवभक्त यहां पर आते हैं और दूध शहद भांग धतूरा पुष्प आज से शिव का अभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाते हैं। भक्तों का कहना है कि मंदिर में शिवलिंग की सिद्धेश्वर महादेव की पूजन अर्चन से सभी के कष्ट दूर होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि को यहां पर भगवान शिव की बारात बड़े ही धूमधाम से नगरवासी निकालते हैं। मंदिर परिसर में भगवान बजरंगबली भगवान मुक्तेश्वर महादेव मां पूर्णागिरी देवी मंदिर शनि देव नवग्रह भगवान व श्री राधा कृष्ण मंदिर मंदिर परिसर में ही स्थापित हैं। जहां पर भक्त रोजाना आते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। यह भी कहा जाता है की एक बार शिवलिंग के जीर्णोद्धार के समय शिवलिंग को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाने के लिए इसकी खुदाई की गई लगभग 28 फीट गहरी की गई और शिवलिंग का छोर नहीं मिला और उसके बाद शिवलिंग की खुदाई बंद कर दी गई। मोहल्ला सिद्धेश्वर नगर निवासी पंडित सुधीर मिश्रा बताते हैं कि वह अपने परिवार की चौथी पीढ़ी से हैं और मंदिर में लगातार उनके खानदान से पंडिताई पुरोहित का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया मुझसे पूर्व उनके पिताजी बाबा व परबाबा द्वारा मंदिर में पुरोहित का कार्य किया। जिससे स्पष्ट होता है मंदिर का कितना महत्व है मंदिर परिसर में पूरे वर्ष अखंड रामायण, मुंडन, भगवान सत्यनारायण की कथा इत्यादि के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। पूर्व चेयरमैन गंगाराम राजपूत बताते हैं कि कहा जाता है भगवान सिध्देश्वर महादेव मंदिर के नाम पर ही कस्बे के नाम सिधौली पड़ा। इन्ही शिव के नाम पर ही मोहल्ला का नाम भी सिध्देश्वर नगर रखा गया।

धूमधाम से मनाया गया भारत परिषद का 30वां स्थापना दिवस

नारी सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल कायम करने वाली विजेन्द्री आर्य को गौरव सम्मान से किया गया सम्मानित

सीतापुर। भारत परिषद का 30वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम संगठन के मंडल अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी जिलाध्यक्ष डॉ वीरेन्द्र आर्य, जिला महसचिव आकाश राय संयुक्त सचिव अजीत सक्सेना, सचिन त्रिपाठी, शशिकान्ति तिवारी, डॉ0 याकूब खांन ने स्थानीय वैदेही वाटिका पर मुख्य अतिथि परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र भूषण पाण्डेय एवं अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारियों का माल्यापर्ण करके स्वागत किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्र भूषण पांडेय ने कहा कि जनपद के पदाधिकारियों ने बहुत से समाजिक कार्य किया है। जिस सपने को पूरा करने के लिए परिषद की नीव रखी गयी लगता है वह दिन दूर नहीं। वहीं बट्सगंज में गोष्ठी की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉ वीरेन्द्र कुमार आर्या व संचालन जिला महासचिव आकाश राय किया। कार्यक्रम का शुंभारंभ मुख्य मंडल अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल कायम कायम करने के लिए विजेन्द्री आर्य को गौरव सम्मान व नेतराम आर्य को कोरोना योद्धा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। वहां पर उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी ने कहा कि भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 8 अगस्त 1992 को परिषद की नींव मुंबई के ग्वालियर मैदान जहां से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया था वहीं रखी गई। उनकी ही प्रेरणा और मार्गदर्शन से परिषद इस मुकाम पर है। जिसमें परिषद के प्रत्येक पदाधिकारी व सदस्य का सहयोग प्राप्त हुआ है। जिला अध्यक्ष डॉ वीरेन्द्र आर्य ने कहा कि परिषद का जनहित के लिए किए जा रहे कार्य कभी भी नहीं थमेंगे। जिला महासचिव आकाश राय ने कहा कि बीते कई वर्ष से परिषद में रहकर पीडिघ्तों की सहायता करने का विशेष अनुभव प्राप्त हुआ है। जिसके बाद समाज के प्रत्येक पीडिघ्त का दर्द परिषद द्वारा बांटा जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रत्नेश द्विवेदी, डॉ वीरेन्द्र आर्य, आकाश राय, अनुपमा द्विवेदी, सुधांशु मिश्रा, डॉ शान्ति स्वरुप रस्तोगी, वेद प्रकाश कश्यप, डॉ राजीव मिश्रा, राम कुमार कटियार, मुईद अहमद, अजीत सक्सेना, सचिन त्रिपाठी, शशिकान्ति तिवारी, शिखा शर्मा सरिता शर्मा, संजय पुरी, डॉ0 याकूब, अम्बरीश दीक्षित आदि उपस्थित रहे। वहीं अंत में परिषद द्वारा प्रकाशित विशेषांक का विमोचन किया गया।

देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहूति देकर देश की रक्षा की:सौरभ मिश्रा

हरदोई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की श्रंखला में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर शहीद उद्यान कंपनी बाग में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सौरभ मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्रा, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह ने चन्द्र शेखर आजाद व शहीदे आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यापर्ण करने के उपरान्त शहीद स्मारक पर शहीदों की याद में पुष्प अर्पित किये। इस अवसर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर महामहिम राज्यपाल आनंदी बेन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने काकोरी में आयोजित कार्यक्रम में काकोरी कांड को अन्जाम देने वाले वीर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया तथा काकोरी कांड के शहीदों को श्रद्वाजंलि अर्पित करते हुए नमन किया और शहीदों द्वारा देश के प्रति बलिदान देने के सम्बन्ध में विस्तार से बताया, जिसका सूचना विभाग की एलईडी के माध्यम से सीधा प्रसारण सभी अतिथियों ने देखा। शहीद उद्यान में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी ने स्व जयदेव कपूर के पुत्र संजय कपूर व पुत्र वधु विनीता कपूर, स्व अवधेश सिंह की पत्नी बेबी, स्व शिवनाथ सिंह के पुत्र अवधेश सिंह, स्व हरि बहादुर श्रीवास्तव की पुत्री मनमन श्रीवास्तव तथा शहीद मेजर पंकज पाण्डेय के पिता अवधेश कुमार पाण्डेय को शाल उढाकर एवं फूल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहूति देकर देश की रक्षा की,जिसे देशवासी कभी भूल नहीं सकते। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि देश के वीरों की गाथा को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है जिन्होंने अपने को बलिदान कर देश एवं देशवासियों की रक्षा की। कार्यक्रम में देश एवं जनपद के वीर शहीदों को नमन करते हुए जिलाधिकारी ने कहा देश की आजादी एवं अखण्डता बनाये रखना ही हम सब के लिए वीर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्वाजंलि है, इसलिए सभी को वीर शहीदों एवं उनके परिवारीजनों को हमेशा सम्मान देना चाहिए। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गयी तथा कार्यक्रम के अन्त में सभी अतिथियों एवं अन्य उपस्थित लोगों द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक वीके दुबे,जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रवि शंकर शुक्ला सहित अन्य अधिकारी, अध्यापक, पत्रकार बन्धु एवं एनसीसी व स्काउट के बच्चे उपस्थित रहे।

मेडिकल परीक्षण को भेजे गये तीन अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर फरार

सिधौली (सीतापुर)। सिधौली कोतवाली द्वारा चालान करने के बाद मेडिकल परीक्षण को भेजे गए तीन अभियुक्त में से एक अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस विभाग में हड़कम्प मच गया। जानकारी के अनुसार सिधौली कोतवाली पुलिस द्वारा बैटरी चोरी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आज .पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों का चालान प्रक्रिया के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया था। जहां से एक अभियुक्त पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। अभियुक्त के फरार होने की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। चारों ओर अभियुक्त के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। लेकिन अभियुक्त ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। सूत्र बताते हैं कि कोतवाली पुलिस ने बैटरी चोरी के मामले में नजीमुल्ला 24 मसिउल्ला निवासी असोदर खैराबाद, नसीब उर्फ शालू पुत्र शहीद खां निवासी मिया सरांय खैराबाद व दिलीप कुमार 26 पुत्र शिवनाथ, सरैया बलदेव सिंह कमलापुर को गिरफ्तार किया था और तीनों अभियुक्तों का चालान किया और उनका मेडिकल परीक्षण करवाने के लिए तीनों अभियुक्तों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली भेजा था। जहां पर तीनों अभियुक्तों का मेडिकल परीक्षण किया गया और इसी दौरान नजीमुल्ला पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बताते हैं कि पुलिस द्वारा उसे काफी तलाश किया गया लेकिन अभियुक्त नहीं मिला। इस मामले में कोतवाली पुलिस कुछ भी कहने से इंकार कर रही है। वहीं उक्त दोनों नसीब व दिलीप का चालानी प्रक्रिया आर्म एक्ट के तहत न्यायालय भेज दिया गया।

दूसरे की परीक्षा देने पहुंचा मुन्ना भाई गिरफ्तार

सीतापुर। टीजीटी परीक्षा में अपनी पहचान छिपाकर दूसरे की जगह फर्जी तरीके से परीक्षा देने आए लखनऊ के एक मुन्नाभाई को ड्यूटी पर लगे कक्ष निरीक्षकों ने पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी लखनऊ में कोचिंग चलाता है वह 30 हजार रुपये लेकर एक अभ्यर्थी की जगह फर्जी तरीके से परीक्षा देने आया था। जानकारी के अनुसार स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज में चल रही टीजीटी की परीक्षा की प्रथम पाली में जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव निवासी उपेंद्र कुमार सिंह पुत्र राजा बक्स सिंह को भी इस परीक्षा केंद्र के कक्ष संख्या 36 में बैठकर परीक्षा देनी थी।

जिला कांग्रेस ने किया पैदल मार्च,भाजपा के गद्दी छोड़ो का किया आह्वान

हरदोई।जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष सिंह के नेतृत्व में मंहगाई, बेरोजगारी,किसान बिल और महिला उत्पीड़न रोकने में नाकाम भाजपा सरकार, गद्दी छोड़ोष्का आह्वान करते हुए हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभाओं में मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा सण्डीला, हरदोई सदर व गोपामऊ विधानसभा में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च निकाला गया। सदर में मार्च का नेतृत्व जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह सोमवंशी ने किया। सण्डीला व गोपमाऊ मार्च में मुख्य अथिति प्रदेश प्रदेश सचिव जीतलाल सरोज,गोपमाऊ मार्च में मुख्य अतिथि एआईसीसी सदस्य शमीना शफीक मौजूद रहीं। हरदोई कांग्रेस कार्यालय से जिलाध्यक्ष की अगुआई में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लेकर,नारेबाजी करते नघेटा रोड होकर आवास विकास कालोनी होते हुए सिनेमा चौराहे से बड़े चौराहे, नुमाइश चौराहे सहित प्रमुख बाजार मार्गों पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई।कोरोना महामारी से त्रस्त जनता की बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी है।उस पर जनता को पांच किलो राशन देकर बड़े बड़े विज्ञापन से प्रचार करके गरीब, मजदूरों की गरीबी का उपहास उड़ाया जा रहा है।कांग्रेस ने ही सड़क सदन तक लगातार भाजपा सरकार को घेरने का काम किया है। शहर अध्यक्ष जमील अहमद अंसारी ने कहा कि पूरे प्रदेश में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की हत्याएं हो रहीं हैं।उनका उत्पीड़न हो रहा है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष निर्भान सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में करोड़ों युवाओं को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा।बहुत से युवाओं ने तो अवसाद में आकर आत्महत्या तक की है।सरकार के सुनहरे वादे, विज्ञापनों तक सिकित रह गई है। इस अवसर पर साधू सिंह, नेतम भारतीय,अनुपम दीक्षित,दीप सिंह गौर, बृजेश वर्मा,अजय पाल, शैलेन्द्र वर्मा,उदय प्रताप सिंह, ऋषिकांत वर्मा, श्रीप्रकाश मिश्रा आदि मौजूद रहे।

हरदोई नगर के सभी नालों व नालियों की जल्द सफाई हो: रामज्ञान गुप्ता

हरदोई।समाजवादी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष रामज्ञान गुप्ता की अगुवाई में हरदोई नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सपा यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष रामज्ञान गुप्ता ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की। हरदोई शहर में सड़कों के किनारे फुटपाथ पर व मोहल्लो मे लगे कूड़े के ढेरों से निकलने वाले राहगीरों व मोहल्ला वासियों को दुर्गंध से परेशान होना पड़ रहा है। शहर के घंटाघर रोड,एमजी रोड,नघेटा रोड,सर्कुलर रोड के अलावा कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं जिससे इनके आसपास रहने वाले शहर वासियों को दुर्गंध से परेशानी होती है। इसके अलावा नघेटा पूर्वी,सुभाष नगर,खगेश्वर पुरवा,गिप्सनगंज, सैयापुरवा,आशा नगर, कृष्ण नगरिया, देविनपुरवा समेत अन्य मोहल्लों में नाले का पानी रुकने से गंदा पानी गलियों में भरा रहता है। जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, हरदोई नगर के चारो तरफ सभी नालों व नालियों की सफाई करायी जाये। नालों की सफाई न होने के कारण पूरे नगर मे जलभराव होता है। जलभराव होने के कारण पूरे शहर मे गन्दगी व्याप्त है और आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रामज्ञान गुप्ता ने कहा आवारा जानवरों से पूरा नगर क्षेत्र भरा हुआ है। आये दिन जानवर किसी न किसी आम जनमानस को ठोकर मार देते हैं। आवारा जानवरों को गौशालाओं मे पहुंचाकर इनके खाने पीने की व्यवस्था करायी जाये। हरदोई नगर पालिका के सभी पार्को का सौन्दीर्यीकरण कराया जाये। पार्को मे आवारा जानवर बैठते हैं और पार्को मे कूड़ा–कचरा गन्दगी व्याप्त है।हरदोई नगर पालिका द्वारा बनाया गया म्युनिसपल बालिका इण्टर कालेज सरकुलर रोड पर लगभग वर्ष से बन्द पड़ा है कालेज को चालू कराया जाये। नगर की सभी पानी टंकियों की जल्द से जल्द सफाई करायी जाये। रामज्ञान गुप्ता कहा कि हरदोई के नुमाईश मैदान मे जल भराव रहता है जिससे मच्छर और गंदगी व्याप्त है। नुमाईश मैदान के चारो तरफ आबादी है बीमारी फैलने का खतरा है। मैदान की पैमाईश कराई जाये तथा पूरे क्षेत्र को कब्जा मुक्त कराया जाए। इसके बाद इसमे मिट्टी का भराव कराकर उसकी ऊँचाई कम से कम आस–पास के लेवल से 1 फुट ऊँची कराई जाये। सभी गलियां में मशीन से फागिंग कराई जाये और नालियों मे दवा का छिड़काव कराया जाये। रहा है।

रामकोट पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, संदिग्धों की ली तालाशी

सीतापुर। रामकोट में एकाएक पुलिस की सघन चौकिंग से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस की ओर से की जा रही सघन चेकिंग को लेकर के कोई यह नहीं समझ पाया कि यह चेकिंग आखिरकार क्यों हो रही है लेकिन जिस ढंग की चेकिंग रामकोट पुलिस ने आज की है। इससे पहले ऐसी चेकिंग कभी भी नहीं देखी गई क्योंकि हर वाहन की सघन चेकिंग करने के बाद ही उसको गुजरने दिया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देशन में रामकोट में जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें बिना नंबर प्लेट एवं संदिग्ध व्यक्तियों की विशेष तलाशी ली गई। कस्बे के बाहर पेट्रोल पंप पर भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग की गई। कस्बे के बाहर जाने वाले और कस्बे के अंदर आने वाले हर दो पहिया, चार पहिया वाहन, प्राइवेट वाहन, प्राइवेट बस इत्यादि वाहनों को सघनता से चेक किया गया। इस चेकिंग के दौरान लोगों की तलाशी भी ली गई। रामकोट थानाध्यक्ष दयानंद तिवारी द्वारा सख्त चेकिंग अभियान से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। थानाध्यक्ष दयानंद तिवारी ने बताया कि आगे भी अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से थानाध्यक्ष दयानंद तिवारी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक कैलाश यादव, प्रवेश कुमार, विशाल पटेल, कपिल देव, भास्कर सहित भारी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद थे।

मीनार–ए–नूर अवॉर्ड से सम्मानित होगी बिसवां की होनहार बेटी

बिसवां नगर (सीतापुर)। आईएसएस 2020 की परीक्षा में 23 वीं रैंक प्राप्त करने वाली कस्बे की होनहार बेटी निगार फ ातिमा के निवास पर सामाजिक संस्थाओं, व्यापारियों, अधिवक्ताओं, राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और पत्रकारों का बधाई एवं शुभकामनाएं देने हेतु तांता लगा हुआ है। बता दें कि गत दिवस सामाजिक संस्था आल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकीत खान के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद असजद नोमानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने निगार फातिमा के घर पहुंच कर परिजनों से भेंट की तथा कुमारी फातिमा हेतु कामयाबी की दुआ व बधाई पेश की। उक्त अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे संवाददाता को बताया कि निगार फातिमा को शीघ्र ही मीनार ए नूर अवॉर्ड से संस्था के उच्च पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फरहत आलम ने निगार फातिमा को माला पहनाकर कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि निगार ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और हौसले से किसी भी स्थान को प्राप्त किया जा सकता है। बताते चलें कि हज वेलफेयर सोसाइटी हज से संबंधित सेवाएं अंजाम देने के अलावा, मिल्ली, समाजी सहित विभिन्न क्षेत्रों में शानदार कार्य करने वालों को अवॉर्ड से सम्मानित करती है। इस मौके पर मो. जमील अहमद, मजाहिरी, वसीम अख्तर नदवी, प्रदेश उपाध्यक्ष जियाउल इस्लाम अय्यूबी, माज खान, मो0 उमैर, आफताब अहमद, मीडिया प्रभारी, अजमत अली उपस्थित रहे।

9 अगस्त को होंगे आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम

सीतापुर। अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक ने बताया कि आजादी के 75 वी वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 9 अगस्त को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रातरू 8 बजे से प्रभात फेरी निकाली जाएगी जो जीआईसी चौराहे से तरणताल होते हुए आंख अस्पताल होकर लालबाग शहीद पार्क में समाप्त होगी। प्रातरू 8.30 बजे शहर स्थित लालबाग पार्क में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रातरू 8.45 बजे से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों का सम्मान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाएगा। प्रातरू 9.30 बजे काकोरी शहीद स्मारक स्थल से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कराया जाएगा। शाम 6 बजे से लालबाग शहीद पार्क स्थित शहीद स्तंभ पर पुलिस, पीएसी बैंड द्वारा राष्ट्रधुन वादन के उपरांत शाम 6.30 बजे से शहीद स्तंभ पर दीप प्रज्वलन होगा। शाम 7 बजे से कवि सम्मेलन का आयोजन लालबाग पार्क में होगा।

अज्ञात चोरों ने दो घरों से चुराया 10 लाख का सामान

सकरन (सीतापुर)। सकरन थाना क्षेत्र अन्तर्गत दो घरों में के पीछे की दीवार फांदकर भीतर घुसे चोर नकदी समेत दस लाख की कीमत का सामान चोरी कर ले गये। मामले की तहरीर पुलिस को दे दी गयी है। जानकारी के अनुशार सकरन थाना क्षेत्र के टेडवाडीह गांव निवासी सरदार कृपाल सिंह पुत्र करन सिंह शुक्रवार की रात परिजनों समेंत छत पर सोया हुआ था। देर रात पीछे की दीवार के सहारे घर के भीतर घुसे चोर कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 10 तोला सोने के जेवर कीमत करीब पांच लाख 500 ग्राम चांदी के जेवर कीमत करीब पच्चास हजार व सात हजार की नकदी समेत अन्य सामान चोरी कर ले गये। उसके बाद इसी रात पड़ोस स्थित उमेश पुत्र रामस्वरूप के घर में घुसे चोर कमरे में रखे बक्से उठाकर बाहर उनके ताले तोड़ रहे थे। आहट पाकर परिजनों के जग जाने पर चोर सामान छोड़कर मौके से भाग गये। दोनों घटनाओं की तहरीर पुलिस को दे दी गयी है। मामले को लेकर जब सीओ बिसवां सुशील कुमार सिंह से बात की गयी तो उन्होंने बताया कि मामले में मुकदमा दर्जकर लिया गया है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जायेगा।

हिन्दी दैनिक
बुद्ध का संदेश
समाचार पत्र
स्वत्वाधिकारी प्रकाशन एवं मुद्रक श्रीमती पुष्पा शर्मा द्वारा बुद्धा प्रिन्टर्स, ज्योतीनगर निकट हीरो एजेन्सी, मधुकरपुर,जिला–सिद्धार्थनगर–272207 उ.प्र. से मुद्रित एवं प्रकाशित।
आर.एन.आई. नं०– UPHIN/2012/49458
संस्थापकः– स्व0 श्री के.सी. शर्मा | प्रधान सम्पादकः– राजेश शर्मा
8795951917, 9453824459
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जनपद–सिद्धार्थनगर न्यायालय ही मान्य होगा
ई–न्यूज पेपरः– www.budhakasandesh.com
E-Mail ID:. budhakasandeshnews@gmail.com

प्रतीक गांधी अभिनीत वेब सीरीज का निर्माण करेंगे अभिनेता अजय देवगन

स्कैम 1992। द हर्षद मेहता स्टोरी की सफलता के बाद प्रतीक गांधी के सितारे बुलंदियों पर पहुंच गए थे। आज के दौर में वह एक उभरते हुए अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। वह इस समय कई प्रोजेक्ट को लेकर व्यस्त हैं। अब जानकारी सामने आ रही है कि वह एक वेब सीरीज में नजर आएंगे, जिसे मशहूर अभिनेता अजय देवगन प्रोड्यूस करेंगे। इस वेब सीरीज का प्रसारण ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगा। अजय प्रतीक की वेब सीरीज सिक्स सस्पेक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। लेट्स ओटीटी ग्लोबल की रिपोर्ट की मानें तो अजय इस प्रोजेक्ट का सह–निर्माण करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, अजय दिवंगत निर्माता विनय सिन्हा की बेटी प्रीति सिन्हा के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट का निर्माण करेंगे। इस संबंध में आधिकारिक जानकारी जल्द सामने आ सकती है। अजय ने इससे पहले तान्हाजीरू द अनसंग वॉरियर और शिवाय जैसे प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। यह सीरीज विकास स्वरूप के इसी नाम के मर्डर मिस्ट्री उपन्यास का आधिकारिक रुपांतरण है। रिपोर्ट के मुताबिक, सीरीज की शूटिंग फरवरी में शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ी टीम ने इसे गोपनीय रखा था। इस किताब के राइट्स अजय और प्रीति ने खरीद लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने विकास की एक अन्य किताब द एक्सीडेंटल अपरेंटिस के राइट्स भी खरीद लिए हैं। अजय ने अभिषेक बच्चन की द बिग बुल को भी प्रोड्यूस किया था। इस सीरीज में ऋचा चड्ढा भी मुख्य भूमिका में दिखने वाली हैं। ऋचा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा था, अपने शेड्यूल में इस प्रोजेक्ट को शामिल करके मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं अपने पंसदीदा निर्देशक के साथ काम करने वाली हूं, जिनके साथ मैंने करियर की शुरुआत की थी। सीरीज के निर्देशक तिग्मांशु धूलिया और ऋचा दोनों गैंग्स ऑफ वासेपुर में को–स्टार के रूप में साथ नजर आए थे। सीरीज की 50 फीसदी शूटिंग पूरी कर ली गई है। 2016 में प्रकाशित हुआ विकास का उपन्यास जेसिका लाल मर्डर केस से मिलता–जुलता है। इसमें एक प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा अपनी नौकरानी को गोली से मार देता है, जब वह उसे ड्रिंक परोसने से मना कर देती हैं। केस और पेचीदा हो जाता है, जब आरोपित उस पार्टी में मृत पाया जाता है। विकास एक प्रसिद्ध भारतीय राजनयिक और लेखक हैं। उनकी पहली पुस्तक का रुपांतरण ऑस्कर विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर है।

रोजाना सूर्य नमस्कार करने से मिलते है अनेक फायदे

सूर्य नमस्कार सुबह की योग मुद्रा है, जिसे यदि प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाए तो शरीर स्वस्थ और दीप्तिमान हो जाता है। सूर्य नमस्कार में 12 प्रभावी आसन होते हैं। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह खाली पेट सूर्य नमस्कार करना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। हाथ छाती के पास नमस्कार की स्थिति में होने चाहिए। पैरों को एडजस्ट करते हुए, सामने देखते हुए या आंखें पोंछते समय बिजमंत्र से सूर्य नाम का उच्चारण करना चाहिए। लाभ– 'सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शारीरिक स्तर पर स्थिरता आती है। 'प्रभावित अंगों पर दबाव पड़ता है जिससे उन अंगों में रक्त संचार बेहतर होता है। 'शुद्ध रक्त की आपूर्ति होती है जो अंगों के कार्य को बढ़ाती है। यह संबंधित विकारों को ठीक करने में मदद करता है। 'सूर्य नमस्कार बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 'शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने वाली ग्रंथियों के कार्य में सुधार करता है। 'शारीरिक, मानसिक दक्षता को बढ़ाता है। 'स्थिरता पैदा करके बच्चों में अस्थिरता को कम करने में मदद करता है। 'बच्चों में सर्दी, बुखार, भूख न लगना जैसी आवर्तक बीमारियों को दूर करने में मदद करता है।

प्रोजेक्ट की विफलता के लिए किसी अभिनेता को दोष देना सही नहीं: राइमा सेन

अभिनेत्री राइमा सेन का कहना है कि किसी परियोजना की विफलता के लिए किसी अभिनेता को दोष देना अनुचित है क्योंकि

यह टीम वर्क है और इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है। राइमा ने बताया मुझे लगता है कि किसी प्रोजेक्ट की विफलता या सफलता के लिए सिर्फ एक अभिनेता को दोष देना अनुचित है क्योंकि मुझे लगता है कि यह टीम वर्क है। हर कोई इसके लिए जिम्मेदार है, केवल अभिनेता ही नहीं। हम एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं लेकिन हम नहीं जानते कि यह अंततरू कैसे निकलेगी। राइमा, जिनके हालिया काम में वेब–श्रृंखला द लास्ट ऑवर शामिल है, उनका कहना है कि टीम वर्क के लिए सब कुछ है। अभिनेत्री ने कहा कि हम नहीं जानते कि इसे कैसे शूट किया जाएगा। हम सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जिसकी हम भूमिका निभाते हैं लेकिन बाकी वास्तव में हमारे ऊपर नहीं है। बेशक, हम कुछ कह सकते हैं लेकिन यह टीम वर्क है आप उस मामले के लिए केवल निर्देशक या किसी को भी व्यक्तिगत रूप से दोष नहीं दे सकते हैं। अनुभवी स्टार मुनमुन सेन की बेटी राइमा ने कहारू दर्शक विकसित होते रहते हैं इसलिए यह दर्शकों पर निर्भर करता है कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। कुछ फिल्में जो दिखाई जाती हैं, वे अपने समय से आगे होती हैं, वे अभी अच्छा नहीं करते, शायद वे बाद में अच्छा करेंगे। राइमा अगली बार आगामी ओटीटी शो मैया में दिखाई देंगी।

राज कुंद्रा की कंट्रोवर्सी के बीच शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता बिग बॉस में आएंगी नजर

रियलिटी शो बिग बॉस के निर्माताओं ने पुष्टि की है कि शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी बिग बी के घर में प्रवेश कर चुकी हैं। वूट पर नवीनतम शबिग बॉस ओटीटी कर्टन रेजरश क्लिप ने दर्शकों को घर में बंद होने वाले प्रतियोगियों से परिचित कराया। इसमें शमिता शेट्टी की सिजलिंग एंट्री होती है, जिसका मतलब है कि वह निश्चित रूप से शो में भाग ले रही हैं। वूट क्लिप में शमिता को प्रसिद्ध गीत शरारा शरारा पर थिरकते हुए बिग बॉस ओटीटी मंच में प्रवेश करते देखा जा सकता है। क्लिप में शमिता मंच पर कदम रखते हुए लाल रंग की पोशाक पहने हुए दिखाई दे रही है। वह स्टनिंग लग रही हैं। उनके साथ बिग बॉस में प्रवेश करेंगे, प्रतीक सहजपाल, दिव्या अग्रवाल, नेहा भसीन, जीशान खान, राकेश बापट, रिद्धिमा पंडित, मिलिंद गाबा, उर्फी जावेद, जीशान खान, करण नाथ, निशांत भट, और अक्षरा सिंह। शमिता शेट्टी की शो में एंट्री उनकी बहन शिल्पा शेट्टी और बहनोई राज कुंद्रा के जीवन में आई परेशानियों के बीच हुई है। कुंद्रा को एडल्ट कंटेंट मामले में गिरफ्तार किया गया है। एडल्ट कंटेंट बनाने और ऐप्स के जरिए इसे पब्लिश करने के लिए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले ने काफी विवादों को जन्म दिया है, जिसके बाद शिल्पा पर भी कई आरोप लगे हैं।

पासपोर्ट मामला: जावेद अख्तर ने कंगना रनौत की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया

गीतकार जावेद अख्तर ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज किया जाए जिसमें उन्होंने महानगर की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा शुरू की गई आपराधिक मानहानि कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की है। उच्च न्यायालय में अपने वकील एन. के. भारद्वाज के मार्फत दायर जवाबी हलफनामे में अख्तर ने कहा कि उपनगर अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने रणौत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू करने में उचित प्रक्रिया का पालन किया है। रणौत के वकील रिजवान सिद्दिकी द्वारा पिछले महीने दायर एक याचिका के जवाब में अख्तर ने जवाबी हलफनामा दायर किया है। रणौत ने याचिका में इस वर्ष शुरू की गई मानहानि कार्यवाही को चुनौती दी और कहा कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। रनौत ने कहा कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनके खिलाफ शिकायत में नामित गवाहों या शिकायतकर्ता का स्वतंत्र रूप से बयान दर्ज नहीं किया। इसने सिर्फ जुहू पुलिस की बातों पर भरोसा किया और उनके खिलाफ मामला शुरू कर दिया। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि अभिनेत्री के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को है।

अरविंद स्वामी के साथ काम करना सम्मान की बात: ऋत्विका

तमिल अभिनेत्री ऋत्विका का कहना है कि आगामी संकलन नवरसा में अभिनेता अरविंद स्वामी द्वारा निर्देशित होना उनके लिए एक रोमांचक अनुभव था। 2018 तमिल बिग बॉस शो जीतने वाली अभिनेत्री, फिल्म रौद्रम में अंबुकरासी के किरदार में दिखाई देंगी, जो एंथोलॉजी में गुस्से की भावना को दर्शाती है।

अरविंद स्वामी के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए, ऋत्विका ने कहारू अरविंद स्वामी जैसे महान अभिनेता के साथ काम करना एक सम्मान की बात थी, जबकि एक निर्देशक के रूप में उनका काम भी देखा गया ।

उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक महान दृश्य पाने के लिए सभी तकनीकी पहलू मौजूद थे और भावनाओं को फिल्माया गया। उनकी सूक्ष्म और विस्तार–उन्मुख फिल्म निर्माण के तरीके प्रभावशाली और असाधारण थे। दृश्यों और संवादों के लिए वचुर्अल कार्यशालाओं और ऑनलाइन बैठकों में भाग लेना मेरे लिए एक रोमांचक अनुभव था।

मनोरंजन से लेकर विस्मय तक, नवरसा भारतीय सौंदर्य सिद्धांत की खोज करता है और नौ कहानियों के माध्यम से प्रेम, हंसी, क्रोध, करुणा, साहस, भय, घृणा, आश्चर्य और शांति की 9 अलग–अलग भावनाओं को प्रदर्शित करता है। एंथोलॉजी 6 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई।

हवाई यात्रा के बाद कानों में होने लगता है दर्द? इन घरेलू नुस्खों से पाएं राहत

कई लोग सुविधाजनक यात्रा के लिए हवाई मार्ग का चयन करते हैं, लेकिन जब फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड करती है तो कानों में असहनीय दर्द होने लगता है। दरअसल, जब फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड करती है, तब कानों पर हवा का अधिक दबाव पड़ता है जिसके कारण दर्द होने लगता है। अगर आपको भी हवाई यात्रा के बाद कानों में दर्द होता है तो आप कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर इससे राहत पा सकते हैं। गर्म सिकाई करें: अगर हवाई यात्रा के बाद आपके कानों में तेज दर्द हो तो इससे राहत पाने के लिए हॉट पैड से कान की सिकाई करें। ऐसे पैड आपको मेडिकल स्टोर पर या ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। हालांकि अगर हॉट पैड न मिलें तो एक सूती का कपड़ा लें और गैस पर तवा गर्म कर लें। अब कपड़े की कई तह बनाकर उसे गर्म तवे से लगाएं और फिर इससे कान के आस–पास 20 मिनट तक सिकाई करें। प्याज भी है प्रभावी: अगर आप हवाई यात्रा के बाद होने वाले कान के दर्द से राहत पाना चाहते हैं तो इसके लिए प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्याज को दो टुकड़ों में काटें और फिर एक टुकड़े को जैतून के तेल के साथ एक पैन में गर्म करें। जब प्याज मुलायम हो जाए तो उसे ठंडा करके एक साफ सूती कपड़े में लपेटें और फिर कपड़े को 10 से 15 मिनट के लिए कान पर रख लें।

जैतून के तेल का करें इस्तेमाल: जैतून के तेल की मदद से भी हवाई यात्रा के बाद होने वाले कान के दर्द को दूर किया जा सकता है। समस्या से राहत पाने के लिए एक ड्रॉपर की मदद से अपने कान में जैतून के तेल की दो से तीन बूंदें डालें। इस उपाय को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप इस तेल में लहसुन की कुछ कलियों को कुचलकर डाल सकते हैं। यकीनन इससे आपको जल्द ही कान के दर्द से राहत मिलेगी।

अदरक से मिलेगी राहत: हवाई यात्रा के बाद होने वाले कान के दर्द से राहत दिलाने में अदरक का इस्तेमाल भी प्रभावी हो सकता है। राहत के लिए सबसे पहले एक कटोरी में एक छोटी चम्मच अदरक का रस और एक छोटी चम्मच जैतून का तेल अच्छे से मिलाएं। अब सूती कपड़े को इस मिश्रण में भिगोकर कान के ऊपर रखें। यकीन मानिए इस उपाय से आपके कानों का दर्द कुछ ही मिनटों में दूर हो जाएगा।